



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 2007—अप्रैल 27, 2007 (वैशाख 1, 1929)  
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 2007—APRIL 27, 2007 (VAISAKHA 1, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4 [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से  
सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry  
of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 अप्रैल 2007

सं. 185, दिनांक 28 मार्च 2007.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार: 76) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री शशिकांत शर्मा को 10.2.2007 (पूर्वाह्न) से इसी मंत्रालय में उनके द्वारा धारित पद की स्व-स्थाने प्रोन्नति करके अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

दामोदार घाटी निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उनका चयन हाने के परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र: 82) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री गौतम चटर्जी का समयपूर्व प्रत्यावर्तन किया जाता है तथा उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर 19.2.2007 (पूर्वाह्न) से दामोदार घाटी निगम, कोलकाता को सौंपी जाती हैं। श्री चटर्जी की प्रतिनियुक्ति की अवधि 11 नवम्बर, 2009 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी। अधिकारी के पास उनका ग्रेड, वेतन तथा

प्रतिनियुक्ति भत्ता, यदि स्वीकार्य हो अथवा पद का वेतन लेने का विकल्प होगा।

राष्ट्रपति, आई ए एंड ए एस (96) की अधिकारी श्रीमती अंजलि सिंह का प्रधान निदेशक वाणिज्यिक ऑडिट तथा पदेन सदस्य ऑडिट बोर्ड-1, नई दिल्ली से स्थानांतरण होने पर उन्हें 16 जनवरी, 2007 (पूर्वाह्न) से 15 जनवरी, 2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, आई आई एस (93) के अधिकारी श्री हिमांक कोटियाल को 6500--10500/-रु. के वेतनमान में, 18.12.2006 (अपराह्न) से उनके मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस.के. देब  
अवर सचिव

## सेना शाखा

सं. 186, दिनांक 2 अप्रैल 2007.—राष्ट्रपति निम्नलिखित पद पर सहस्र नियुक्त करते हैं:—

## नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

## लै. के पद पर

निम्नलिखित 201 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-81 कार्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 18 मार्च 2006 को शुरू हुआ था, लै. के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 18 मार्च 2006 से पाँच वर्ष के लिए लै. के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 (संशोधित) के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है (अपवाद: एस एस-41850वाई अमोस हुंग्यो, आर्टी जिनको दिनांक 03 अगस्त 2006 से अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया गया है):—

एस एस नं. नाम, आर्म/सर्विस

41805एम अमृतपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

41806पी प्रवीण कुमार, आर्टी

41807एक्स निलेश नागेश पाटिल, एओसी

41808ए देरामंड फेडरिक हाईड, एसी

41809एच जुमडे अभिषेक दिगम्बर राव, मैक

41810एक्स चेबा पराग विमलकुमार, इन्फैन्ट्री

41811ए अनिलकुमार सलगोत्रा, इन्फैन्ट्री

41812एच जिज्ञासु पुरी, आर्टी

41813एल अनिल कुमार, एएससी

41814एन अभिक दत्ता, इन्फैन्ट्री

41815डब्ल्यू अक्किवते सचिन साम्भा जेयराव, इन्फैन्ट्री

41816वाई अनिल कुमार, आर्टी

41817एफ सुरज आर जकनूर, इन्फैन्ट्री

41818के सिंह नेगी महेन्द्र दिवान, आर्टी

41819एम विवेक कुमार जसवाल, इन्फैन्ट्री

41820एफ बब्बर भानु, आर्टी

41821के कृष्ण पोल सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री

41822एम दुष्यन्त सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री

41823पी संदीप कुरूप, इन्फैन्ट्री

41824एक्स संखपाल सुरज प्रकाशराव, इन्फैन्ट्री

41825ए राहुल तनवर, एएससी

41826एच सतीश कुमार सिंह, आर्टी

41827एल सी एच सोनेलाल आइमोल, इन्फैन्ट्री

41828एन सुमन कुमार सिन्हा, एएडी

41829डब्ल्यू भास्कर लिम्बु, इन्फैन्ट्री

41830एल शिवशंकर दीप एस, इन्फैन्ट्री

41831एन मौसम कुमार, आर्टी

41832डब्ल्यू नवीन वी के, इन्फैन्ट्री

41833वाई प्रतीकान्त महापात्र, एएडी

41834एफ किशोर कुमार, आर्टी

41835के राकेशकुमार डंडपत, एएडी

41836एम राजिन्दर राठौर, आर्टी

41837पी एन पार्थीबन, इन्फैन्ट्री

41838एक्स शरद हैनरी जोजफ, आर्टी

41839ए तेज प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री

41840पी नीरज गुप्ता, आर्टी

41841एक्स अनुराग सिंह, आर्टी

41842ए सुशील कुमार चौधरी, आर्टी

41843एच शराब बाबर, मैक

41844एल अकोईजंम चिंगलेमबा मईतई, इन्फैन्ट्री

41845एन जाधव मंदारी चंद्रकांत, इन्फैन्ट्री

41846डब्ल्यू भास्कर जोशी, एओसी

41847वाई जयशंकर सिंह, इन्फैन्ट्री

41848एफ प्रदीप कुमार, इन्फैन्ट्री

41849के विकास चौहान, इन्फैन्ट्री

41850वाई आमोस हुंग्यो, आर्टी

41851एफ रोहित गुलेरिया, इन्फैन्ट्री

41852के जाकेवीलु जिन्नू, इन्ट

41853एम गिरीश कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री

41854पी विकास शर्मा, इन्फैन्ट्री

41855एक्स जयदीप, आर्टी

41856ए सी एच जैकब, इन्फैन्ट्री

41857एच गुरदकबाल सिंह, आर्टी

41858एल औंकार जोशी, एसी

41859एन एम पी अय्यप्पा, एसी

41860एच हर्षा कुमार, इन्फैन्ट्री

|   |   |
|---|---|
| 41861एल. रणदीप सिंह बीका, इन्फैन्ट्री         | 41896एफ अक्षय विजय पवार, एसी                |
| 41862एन मनीष सिंह, इन्फैन्ट्री                | 41897के विकास कुण्डू, एएडी                  |
| 41863डब्ल्यू विनय कुमार पांडेय, इन्फैन्ट्री   | 41898एम वनलाल सांगा, इन्फैन्ट्री            |
| 41864वाई राकेश कुमार सिंह, आर्टी              | 41899पी एम कमल कनन, आर्टी                   |
| 41865एफ मनविन्दर बाली, एएससी                  | 41900वाई देसाई धनाजी चंद्रकांत, इन्फैन्ट्री |
| 41866के प्रतीक मलिक, एसी                      | 41901एफ अतुल देवली, आर्टी                   |
| 41867एम गुरुसिद्धगौड पाटिल, इन्फैन्ट्री       | 41902के प्रदीप कुमार सोकान्त, इन्फैन्ट्री   |
| 41868पी सईद आसिफ इकबाल, आर्टी                 | 41903एम वरुण वशिष्ठ, एएससी                  |
| 41869एक्स अभिषेक राठी, इन्फैन्ट्री            | 41904पी श्रीनिधी सी जे, एएडी                |
| 41870एम हाउरोकचम खागेम्बा, इन्फैन्ट्री        | 41905एक्स चेंगप्पा सी जी, मैक               |
| 41871पी अमित कुमार पांडेय, इन्फैन्ट्री        | 41906ए दीपेश प्रकाश, इन्फैन्ट्री            |
| 41872एक्स गुरप्रीत सिंह, एएडी                 | 41907एच गौरव सिंह, आर्टी                    |
| 41873ए गुरअमर सिंह, एएडी                      | 41908एल विकाय रायजादा, एओसी                 |
| 41874एच नीरज तुली, आर्टी                      | 41909एन अरुण कुमार यादव, आर्टी              |
| 41875एल अमित कुमार यादव, आर्टी                | 41910एच ब्रह्मदेव सिंह, एओसी                |
| 41876एन मनोज कुमार खाली, इन्फैन्ट्री          | 41911एल अरविंद सिंह राठौड़, इन्फैन्ट्री     |
| 41877डब्ल्यू भारत भूषण, एएडी                  | 41912एन सुनिल कुमार, इन्फैन्ट्री            |
| 41878वाई मुकुन्द वी, इन्फैन्ट्री              | 41913डब्ल्यू मनीष श्रेष्ठ, इन्फैन्ट्री      |
| 41879एफ किशोर सिंह, आर्टी                     | 41914वाई आशिष आर चन्द्रन, इन्फैन्ट्री       |
| 41880डब्ल्यू रवीन्द्र बृदिहाल, इन्फैन्ट्री    | 41915एफ नायर सजीथ कृष्णन, एएडी              |
| 41881वाई महेशकुमार एस मालागिति, इन्फैन्ट्री   | 41916के अंशुमन शर्मा, इन्फैन्ट्री           |
| 41882एफ रमनदीप मक्कड, आर्टी                   | 41917एम कपिल पाठक, एएससी                    |
| 41883के शास्त्री सुमित शशि, आर्टी             | 41918पी स्वागत शर्मा, एसी                   |
| 41884एम अभिनव कुमार, मैक                      | 41919एक्स गजेन्द्र एस शेखावत, इन्फैन्ट्री   |
| 41885पी मुकेश कुमार के, आर्टी                 | 41920एम जोरावर सिंह जमवाल, इन्फैन्ट्री      |
| 41886एक्स नीलाभ जोशी, एओसी                    | 41921पी पंकज सिंह, इन्फैन्ट्री              |
| 41887ए उगले धनश्याम चन्द्रकांत, इन्फैन्ट्री   | 41922एक्स रवि पंवार, इन्फैन्ट्री            |
| 41888एच विक्की क्षत्री, आर्टी                 | 41923ए गौरव मिश्रा, इन्फैन्ट्री             |
| 41889एल कुलदीपक राणा, एएडी                    | 41924एच मनीष गुसाई, इन्फैन्ट्री             |
| 41890ए रोहित प्रकाश नायक, इन्फैन्ट्री         | 41925एल शरत आनिगोल, मैक                     |
| 41891एच रोबिन सांगवान, इन्फैन्ट्री            | 41926एन अभिषेक संदू, आर्टी                  |
| 41892एल ठक्कर चिराग जयशी, एएडी                | 41927डब्ल्यू गिनसोनलाल तोनसिंग, इन्फैन्ट्री |
| 41893एन हरिकेश प्रताप सिंह, एओसी              | 41928वाई पोलुमुरि राजकुमार, इन्ट            |
| 41894डब्ल्यू गायकवाड शामराव आनंद, इन्फैन्ट्री | 41929एफ सिद्धार्थ सिंह सम्बयाल, इन्फैन्ट्री |
| 41895वाई टी कृष्ण कुमार, इन्फैन्ट्री          |   |

|              |                                  |              |  |
|--------------|----------------------------------|--------------|--|
| 41930डब्ल्यू | महेन्द्र सिंह, आर्टी             | 41964के      | अरित्र रक्षित, आर्टी                     |
| 41931वाई     | जगपाल सिंह, इन्ट                 | 41965एम      | डिसूजा स्टेनले जोन विक्टर रोनाल्ड, आर्टी |
| 41932एफ      | प्रज्जवल दीक्षित, इन्फैन्ट्री    | 41966पी      | मीर नदीम, आर्टी                          |
| 41933के      | युधिष्ठिर खलदानिया, एएससी        | 41967एक्स    | जादव सचिन कुमार राजाराम, आर्टी           |
| 41934एम      | गुरप्रीत सिंह अरोरा, आर्टी       | 41968ए       | योगेश लाड, इन्फैन्ट्री                   |
| 41935पी      | नागपाल जितेन्द्र, एएडी           | 41969एच      | कृष्ण दयाल सिंह राठौर, आर्टी             |
| 41936एक्स    | विक्रम विजय, इन्फैन्ट्री         | 41970एक्स    | स्नेहल नायर, एओसी                        |
| 41937ए       | रजत सिंह, एओसी                   | 41971ए       | राकेश रंजन, इन्फैन्ट्री                  |
| 41938एच      | अरुण कुमार वशिष्ठ, एसी           | 41972एच      | सूद विक्रान्त विनय, एसी                  |
| 41939एल      | अंकित मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री     | 41973एल      | अमित कुमार, मैक                          |
| 41940ए       | रितेश कुमार, एओसी                | 41974एन      | ललित मोहन शर्मा, इन्फैन्ट्री             |
| 41941एच      | अश्विन पुंडीर, एसी               | 41975डब्ल्यू | मनीष गुप्ता, आर्टी                       |
| 41942एल      | अमरीश दुबे, एओसी                 | 41976वाई     | सुमित जोशी, एएससी                        |
| 41943एन      | लोदोस स्पलगेस, इन्फैन्ट्री       | 41977एफ      | अभिषेक बनर्जी, इन्फैन्ट्री               |
| 41944डब्ल्यू | अब्राहम आनंद अरुणकुमार, आर्टी    | 41978के      | दीपक राठौर, एएडी                         |
| 41945वाई     | अजय बी राव, एएडी                 | 41979एम      | दीजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री              |
| 41946एफ      | तारेश शर्मा, आर्टी               | 41980एफ      | ए पी सी राजेश, आर्टी                     |
| 41947के      | सरताज सिंह पन्नु, एओसी           | 41981के      | क्रिस्टो सुदीप डिसूजा, आर्टी             |
| 41948एम      | शंकरनारायण सुब्रह्मण्यम, आर्टी   | 41982एम      | एन प्रसन्ना, आर्टी                       |
| 41949पी      | विकास लाम्बा, आर्टी              | 41983पी      | ध्रुवश्री दास, इन्फैन्ट्री               |
| 41950के      | अजय यादव, एओसी                   | 41984एक्स    | अमिताभ घोषाल, एसी                        |
| 41951एम      | गोपाल अरोरा, इन्ट                | 41985ए       | विजय कुमार, एएससी                        |
| 41952पी      | थोनोजाम नोंगपोंगनबा, इन्फैन्ट्री | 41866एच      | ध्रुव्रत काकोटी, इन्फैन्ट्री             |
| 41953एक्स    | ईश्वर सिंह पुरोहित, एओसी         | 41987एल      | रेजिल राज अब्राहम, आर्टी                 |
| 41954ए       | नाथर राजीव ससीदरन, इन्फैन्ट्री   | 41988एन      | विराट कौशल, आर्टी                        |
| 41955एच      | आशीष सक्सेना, इन्फैन्ट्री        | 41989डब्ल्यू | वर्तक ऋषिकेश सुधांशु, आर्टी              |
| 41956एल      | बलबीर सिंह राठौर, इन्ट           | 41990एल      | कुमार अनुराग सिंह, इन्फैन्ट्री           |
| 41957एन      | खाईसोमांग वाईफाई, इन्फैन्ट्री    | 41991एन      | दीपक चौधरी, एएडी                         |
| 41958डब्ल्यू | राम चन्द्र, एओसी                 | 41992डब्ल्यू | गौरव तिवारी, इन्फैन्ट्री                 |
| 41959वाई     | उपमन्यु सिंह, एसी                | 41993वाई     | अनिरुध आनंद, मैक                         |
| 41960एन      | अतिन गुप्ता, एएडी                | 41994एफ      | रमाकांत आर, आर्टी                        |
| 41961डब्ल्यू | श्वेताभ सिंह, इन्फैन्ट्री        | 41995के      | अरूण सिंह, आर्टी                         |
| 41962वाई     | त्रिभुवन कान्त शर्मा, एएडी       | 41996एम      | उदय वीर सिंह संगवान, एओसी                |
| 41963एफ      | प्रशांत धवन, इन्ट                | 41997पी      | सैन ए नवीन, आर्टी                        |
|              |                                  | 41998एक्स    | प्रसोभ के आर, इन्ट                       |

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 41999ए    | इन्दरजीत सिंह राठौर, एसी  |
| 42000एफ   | राहुल झा, आर्टी           |
| 42001के   | महेश राजा, आर्टी          |
| 42002एम   | जितेन्द्र सिंह, जेएजी     |
| 42003पी   | गौतम सी, आर्टी            |
| 42004एक्स | प्रणय एन जसोरिया, आर्टी   |
| 42005ए    | अभिषेक परमार, इन्फैन्ट्री |

निम्नलिखित 48 महिला अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि दिनांक 18 मार्च 2006 से आरंभ हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि अर्थात् 18 मार्च 2006 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत लै. के पद पर पांच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है :--

डब्ल्यू एस नं., नाम और आर्म/सर्विस

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 01138एफ      | नीलम राठी, एएससी           |
| 01139के      | नेहा शुक्ला, एएडी          |
| 01140वाई     | सुनयना, इन्ट               |
| 01141एफ      | अंशु जम्वाल, एएडी          |
| 01144पी      | अनिला खत्री, एएडी          |
| 01145एक्स    | नाकील पल्लवी बजरंग, एएडी   |
| 01146ए       | सोनिया भारद्वाज, जेएजी     |
| 01148एल      | अन्नपूर्णा प्रधान, इन्ट    |
| 01149एन      | सिंह अंजली मदन, जेएजी      |
| 01151एल      | सुलेखा रिंकी, एओसी         |
| 01152एन      | शिवानी चिब, जेएजी          |
| 01154वाई     | सुरभि सिंह, एओसी           |
| 01157एम      | दवे मीरा प्रदीपकुमार, एओसी |
| 01158पी      | गरिमा, एएससी               |
| 01161पी      | ज्योती गोदारा, एएडी        |
| 01162एक्स    | ज्योत्स्ना सिंह, एओसी      |
| 01163ए       | देशपांडे अबोली अनन्त, इन्ट |
| 01164एच      | स्वाति शर्मा, एओसी         |
| 01165एल      | लक्ष्मी मोहन, एएससी        |
| 01167डब्ल्यू | द्विकल रावत, एओसी          |
| 01169एफ      | नीमा गोयल, एएससी           |
| 01170डब्ल्यू | अमृता नेगी, एएडी           |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 01171वाई     | जसमीत कौर, एओसी                    |
| 01174एम      | ऋतु सिंह, एओसी                     |
| 01175पी      | कोले अमृता बालासाहेब, एएडी         |
| 01176एक्स    | सपना सिन्हा, एएडी                  |
| 01178एम      | सोनी दहिया, एएडी                   |
| 01179एल      | अर्चना त्यागी, एओसी                |
| 01181एच      | वैकट नागलक्ष्मी ए, एओसी            |
| 01183एन      | संदीपिका खारा, एएससी               |
| 01185वाई     | अंजली मेहन, इन्ट                   |
| 01186एफ      | भिंनारदेवे रेशमा चन्द्रकांत, एएससी |
| 01187के      | टीना धीर, एएससी                    |
| 01188एम      | शैलवी सिंह, एओसी                   |
| 01189पी      | जयविंदर कौर, एओसी                  |
| 01190के      | प्रियंका मनहास, एओसी               |
| 01192पी      | रमनदीप कौर मुण्डी, एएससी           |
| 01193एक्स    | महजबी खान, एओसी                    |
| 01194ए       | प्रेरणा प्रीति, एओसी               |
| 01195एच      | इला, एओसी                          |
| 01196एल      | प्रज्ञा जोशी, इन्ट                 |
| 01197एन      | अनामिका राय, एएससी                 |
| 01199वाई     | साधना रावल, इन्ट                   |
| 01200एच      | अनुप्रिया दास, एओसी                |
| 01201एल      | रीना गैरोला, एओसी                  |
| 01203डब्ल्यू | सस्मिता महापात्र, आईसी             |
| 01204वाई     | जाधव सविता राजाराम, एएससी          |
| 01207एम      | श्यामली आर्या, आईसी                |

सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9, दिनांक 01 जून 1996) विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत निम्नलिखित 17 महिला अधिकारियों को विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) लै. के पद पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से प्रदान किया जाता है। उनको प्रशिक्षण की समाप्ति पर विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत दिनांक 18 मार्च 2006 से पांच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 21 मार्च 2004 से वेतन तथा प्रोन्नति के लिए उपरोक्त सेनानुदेश के अन्तर्गत वरीयता प्रदान की जाती है।

डब्ल्यू एस नं., नाम, आर्म/सर्विस और विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

|         |   |
|---------|---|
| 01142के | गायत्री हुड्डा, इंजी., 03 अक्टूबर 2005  |
| 01143एम | पद्मन अनिता अशोक, ईएमई, 03 अक्टूबर 2005 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 01150एच<br>2005 | अनुजा हनमंत वरूडकर, इंजीनियर, 03 अक्टूबर 2005     |
| 01153डब्ल्यू    | पूनम बूरा, इंजीनियर, 03 अक्टूबर 2005              |
| 01156के         | चेलुर सुमलता नागराज, ईएमई, 03 अक्टूबर 2005        |
| 01160एम         | गौरी तिवारी, इंजीनियर, 03 अक्टूबर 2005            |
| 01166एन         | आंचल पोरवाल, ईएमई, 03 अक्टूबर 2005                |
| 01172एफ<br>2005 | पिल्लै दिव्या गोपीनाथन, इंजीनियर, 03 अक्टूबर 2005 |
| 01173के         | तारिणी शुक्ला, इंजीनियर, 03 अक्टूबर 2005          |
| 01177ए          | प्रियंका सिन्दवानी, ईएमई, 03 अक्टूबर 2005         |
| 01180ए          | सश्मिता बेहरा, ईएमई, 03 अक्टूबर 2005              |
| 01182एल         | नीतू, इंजीनियर, 03 अक्टूबर 2005                   |
| 01191एम         | भगत राधिका चन्द्रकांत, सिग्नल, 03 अक्टूबर 2005    |
| 01198डब्ल्यू    | पूनम वर्मा, ईएमई, 03 अक्टूबर 2005                 |
| 01202एन         | आशा रोशिनी एम एस, सिग्नल, 03 अक्टूबर 2005         |
| 01206के         | उलापु संध्यालक्ष्मी, इंजीनियर, 03 अक्टूबर 2005    |
| 01208पी         | सागरिका एम, सिग्नल, 03 अक्टूबर 2005               |

लै. के पद पर

निम्नलिखित जेन्टलमैन कैडेट्स को, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (तकनीकी)-23 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लै. के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 17 सितम्बर 2005 से पाँच वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 17 सितम्बर 2003 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94 (संशोधित) के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरीयता वेतन तथा प्रोन्नति के लिये दी जाती है :--

संजीव कुमार राव (एसएस-41472एल), सिग्नल वरिष्ठता ज्येष्ठता लै. पिसाल अभय विजय सिंह (एसएस-41473एन), ईएमई, पंकज वर्मा (एसएस-41482पी), सिग्नल निदिष्टता ज्येष्ठता, लै. सरबजोत सिंह सोही (एसएस-41481एम), ईएमई, रेयसन अन्सारी (एसएस-41488डब्ल्यू), सिग्नल निदिष्टता ज्येष्ठता, लै. विवेक बिन्द्रा (एसएस-41487एन), इंजीनियर्स, प्रवीण डोगरा (एसएस-41494के), सिग्नल निदिष्टता ज्येष्ठता, लै. दीपक वर्मा (एसएस-41493एफ), ईएमई, एवं बी सुबाश कृष्णा (एसएस-41505एल), ईएमई निदिष्टता ज्येष्ठता लै. राजू बी (एसएस-41504एच), इन्जिनियर्स जिनका नाम भारत वर्ष के राजपत्र में दिनांक 06 मई, 2006 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

निम्नलिखित जेन्टलमैन कैडेट्स को, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (तकनीकी)-22 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लै. के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 19 मार्च 2005 से पाँच वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 19 मार्च 2003 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94 (संशोधित) के अंतर्गत तकनीकी योग्यता हेतु दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिये दी जाती है :--

सोमरपेट्टा जगदीश कुमार (एसएस-41186के), सिग्नल निदिष्टता ज्येष्ठता लै. उदयादित्य मुखर्जी (एसएस-41185एफ), ईएमई, राजदीप भट्टाचार्य (एसएस-41187एम), वरिष्ठता ज्येष्ठता लै. विकास खरे के ठीक ऊपर, जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र में दिनांक 06 मार्च 2006 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

(विशेष आयोग)

निम्नलिखित आठ जेसीओज/एनसीओज को सेना अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत संलिखित सेना सेवा में 10 जून 2006 से लेफ्टिनेन्ट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है :--

सैन्य सं., पैतृक आर्म्स/सर्विस, नाम, एससी नम्बर एवं आर्बिट्ररी सर्विस/आर्म्स

(3393498एक्स), इन्फैन्ट्री, अजीत सिंह (एससी-00502एच), एओसी

(5348445ए), इन्फैन्ट्री, किरन कुमार छेत्री (एससी-00503एल), आर्टी

(जेसी-373810के), सिग्नल, जितेन्द्र बहादुर सिंह (एससी-00504एन), आर्टी

(4187695पी), इन्फैन्ट्री, महेश सिंह किरोला (एससी-00505डब्ल्यू), एओसी

(9512654एम), एडसी, गोपटेडे ए के (एससी-00506वाई), आर्टी

(15120944के), आर्टी, जम्मलमड़क महेश (एससी-00507एफ), आर्टी

(14918019एन), मैक, विनोद प्रताप (एससी-00508के), एओसी

(15311960के), इन्जिनियर्स (एमईजी), एस पेरिया करुप्पन (एससी-00509एम), आर्टी

एस के शर्मा

लै. कर्नल

सह सेना सचिव-8बी

एकीकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

प्रशासन-निदेशालय (सिव)

सं. 187, दिनांक 29 मार्च 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना

मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत उनके नामों के आगे उल्लिखित समयावधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान 6500-200-10,500/- रु. में नियुक्त करते हैं :--

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| श्री यु.के. आहुजा       | 23.11.06 से 23.02.07 |
| श्री जोगेन्द्र विक्रम   | 02.01.07 से 23.02.07 |
| श्रीमती मृदुला माथुर    | 05.01.07 से 23.02.07 |
| श्री ऋषि प्रकाश उप्रेती | 02.01.07 से 23.02.07 |

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 188, दिनांक 28 मार्च 2007.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक अथवा नियमित प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर और आगे बढ़ाते हैं:--

| क्र. सं. अधिकारी का नाम | से       | तक        |
|-------------------------|----------|-----------|
| 1. श्री एम. शशिधरन      | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 2. श्री जी.वी. सिंह     | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 3. श्री ए.एस. भरारा     | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 4. श्री बी.सी. मेहता    | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 5. श्री सुरेश कुमार     | 1.1.2007 | 30.6.2007 |

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर आगे बढ़ाते हैं:--

| क्र. सं. अधिकारी का नाम | से       | तक        |
|-------------------------|----------|-----------|
| 1. श्री ओ.पी. चौहान     | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 2. श्री बी.के. बैनर्जी  | 1.1.2007 | 30.6.2007 |

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों, जो इस समय रक्षा मंत्रालय में

6,500-200-10,500/-रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न हैं, की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक या नियमित निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, और आगे बढ़ाते हैं:--

| क्र. सं. अधिकारी का नाम        | से       | तक        |
|--------------------------------|----------|-----------|
| 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 2. श्री नरेन्द्र चड्ढा         | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 3. श्रीमती हरविन्दर चावला      | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 4. श्रीमती सुखपाल वालिया       | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 5. श्रीमती सुनीता कोहली        | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 6. श्री एस.सी. धींगड़ा         | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 7. श्री आर. शंकरनारायणन        | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 8. श्री वी.वी.एन. कुट्टी       | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 9. श्रीमती निर्मल आनंद         | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 10. श्रीमती वीना मेहता         | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 11. श्रीमती संतोष कुमारी शर्मा | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 12. श्रीमती जनक चोपड़ा         | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 13. श्रीमती वीना सचदेवा        | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 14. श्री एच.आर. धीमन           | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 15. श्रीमती चंद्रकान्ता कालरा  | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 16. श्रीमती विजय नारंग         | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 17. श्रीमती मरियम्मा जॉर्ज     | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 18. श्री बालकृष्ण सिंह         | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 19. श्रीमती ए. गंगा            | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 20. श्री अशोक कुमार            | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 21. श्रीमती शक्ति बाला बक्शी   | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 22. श्री नंद किशोर             | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 23. श्री धर्मवीर               | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 24. श्री एस. नागराजन           | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 25. श्री आर.के. सेठी           | 1.1.2007 | 30.6.2007 |
| 26. श्री आर.के. मेहता          | 1.1.2007 | 31.1.2007 |

2. तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव) के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एस.के. देब  
अवर सचिव

सं. 189, दिनांक 28 मार्च 2007.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 83) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. थॉमस मैथ्यु के विस्तारित कार्यकाल/उनकी अर्जित छुट्टी के पूरा होने पर उनकी सेवाएं दिनांक 19.2.2007 (पूर्वाह्न) से केरल सरकार को सौंपी जाती हैं।

एस.के. देब  
अवर सचिव

सेना शाखा  
नियमित सेना

सेना सेवा कोर (यान्त्रिक परिवहन और पूर्ति)

सं. 190, दिनांक 29 मार्च 2007.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

सूबेदार (आर टी)

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र (जेसी-660829एच), 08 जनवरी 2007 \*

नायब सूबेदार दिवाकर पाण्डेय (जेसी-660830एक्स), 03 जनवरी 2007 \*

नायब सूबेदार ब्रिजेश कुमार (जेसी-660883डब्ल्यू), 02 जनवरी 2007 \*

नायब सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-660884वाई), 08 जनवरी 2007 \*

नायब सूबेदार ग्यान बाबु त्रिपाठी (जेसी-660886के), 05 जनवरी 2007 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार (एम टी)

नायब सूबेदार वीर पाल सिंह (जेसी-662685के), 12 जनवरी 2007 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मृत्युन्जय कुमार (जेसी-662716वाई), 11 नवम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कुलभूषण शर्मा (जेसी-662722एम), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार राम कृष्ण (जेसी-662723पी), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार कैलाश चन्द जोगी (जेसी-662734एफ), 09 दिसम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सालिक राम (जेसी-662735के), 02 जनवरी 2007

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार श्याम लाल (जेसी-662739ए), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार चन्द्र कान्त बोराह (जेसी-662749के), 02 जनवरी 2007 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राज किशोर (जेसी-662775एल), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार (एम टी)

हवलदार सुबाश मंडल (सं. 13886252पी अब जेसी-664198एच), 25 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार चन्द्र भान (सं. 13886459पी अब जेसी-664204एल), 04 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 सितम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार महन्थ सिंह (सं. 13887154एफ अब जेसी-664202ए), 03 दिसम्बर 2006 \*

हवलदार भाबा शंकर दास (सं. 13887170वाई अब जेसी-664199एल), 02 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 21 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

हवलदार बनय सिंह (सं. 13887501पी अब जेसी-664200पी), 18 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 24 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार नन्द किशोर (सं. 13889689एन अब जेसी-664203एच), 18 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 21 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

हवलदार तेज बहादुर (सं. 13890454डब्ल्यू अब जेसी-664201 एक्स), 11 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार अनिल कुमार प्रसाद (सं. 13891321के अब जेसी-664205एन), 02 नवम्बर 2006 \*



\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 29 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 13894183वाई अब जेसी-664206डब्ल्यू) 03 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार मनोरंजन दास (सं. 13885503एफ अब जेसी-664256एफ), 13 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 21 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बदन सिंह (सं. 13885943पी अब जेसी-664251पी), 12 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 16 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार श्री भगवान सिंह (सं. 13887022एन अब जेसी-664260के), 13 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 18 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दिलीप कुमार परिडा (सं. 13887377ए अब जेसी-664271डब्ल्यू), 16 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मधुसूदन गरई (सं. 13889024एक्स अब जेसी-664257के), 13 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गौतम सिंह (सं. 13889297ए अब जेसी-664252एल), 15 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 28 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार परशुराम पाण्डेय (सं. 13890507एफ अब जेसी-664255वाई), 22 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 21 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अखिलेश्वर प्रसाद सिंह (सं. 13890553डब्ल्यू अब जेसी-664253एन), 19 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 28 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार एम डी अब्दुल मोजीद (सं. 13890878के अब जेसी-664254डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2006 \*

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 13891380डब्ल्यू अब जेसी-664257एम), 14 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार प्रभाकर सिंह (सं. 13891776ए अब जेसी-664273एफ), 24 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार श्री राम प्रसाद (सं. 13891782एन अब जेसी-664261एम), 16 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज कुमार (सं. 13891918एम अब जेसी-664268डब्ल्यू), 05 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राम पारी खान चौरसिया (सं. 13894096एल अब जेसी-664262पी), 12 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शम्भु प्रसाद (सं. 13894261एल अब जेसी-664269वाई), 15 जनवरी 2007 \*

हवलदार राम बीर सिंह (सं. 13894523डब्ल्यू अब जेसी-664267एन), 12 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार हरे राम (सं. 13894650एल अब जेसी-664264ए), 01 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार फैजुर रहमान लस्कर (सं. 13897069एम अब जेसी-664265एच), 13 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 28 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बनबारी लाल (सं. 13897123पी अब जेसी-664266एल), 12 जनवरी 2007 \*

हवलदार यादराम कुम्हार (सं. 13897124एक्स अब जेसी-664272वाई), 19 जनवरी 2007 \*

हवलदार जय किशोर पंडित (सं. 13897193एन अब जेसी-634263एक्स), 09 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार (एसकेटी)

नायब सूबेदार पूनम सिंह (जैसी-642731एम), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार कपिल देव सिंह (जैसी-642558एन), 02 दिसम्बर 2006\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरीदासन पिल्ले ए (जैसी-642448वाई), 12 जनवरी 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एसकेटी)

हवलदार राम गोपाल (सं. 6383761एल अब जैसी-664236एन), 09 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार एस रामा सामी (सं. 6384122डब्ल्यू अब जैसी-664237डब्ल्यू), 08 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार हेमचंद्रा झा (सं. 6383043पी अब जैसी-664238वाई), 11 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 02 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार महेश सिंह (सं. 6385792के अब जैसी-664239एफ), 10 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 21 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार नीलुत पाल दास (सं. 6386226डब्ल्यू अब जैसी-664240डब्ल्यू), 13 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राणजीत प्रसाद (सं. 6386262एफ अब जैसी-664241वाई), 03 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शैलेश कुमार सिंह (सं. 6385219एन अब जैसी-664242एफ), 08 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कुंजा राम बारो (सं. 6385998एफ अब जैसी-664243के), 11 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जसदेव सिंह (सं. 6380673के अब जैसी-664244एम), 09 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रविद्रन ए (सं. 6383714एन अब जैसी-664245पी), 13 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार किशन सिंह (सं. 6385288के अब जैसी-664246एक्स), 10 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार साथीअनाधन कुंही पुरयील (सं. 6472939एल अब जैसी-664247ए), 13 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 6385325एम अब जैसी-664248एच), 08 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार हरी राम (सं. 6385934डब्ल्यू अब जैसी-664249एल), 13 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्रा सिंह (सं. 6385589एन अब जैसी-664250ए), 12 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार ताबे सूर्याभान साधू (सं. 6385454एम अब जैसी-664251एच), 09 जनवरी 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

सेना वायु रक्षा कोर  
नायब सूबेदार के पद में

हवलदार नित्यानंदा मंडल (सं. 14480790पी अब जेसी-299725के),  
01 अक्टूबर 2006

आरएचएम करन सिंह (सं. 14393475एच अब जेसी-299726एम),  
18 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम अरविंद कुमार सिंह (सं. 14410267एम अब जेसी-  
299727पी), 16 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम राम मोहन (सं. 14414317के अब जेसी-299728एक्स),  
19 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम सुदीश के (सं. 14410618डब्ल्यू अब जेसी-299729ए),  
18 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम धीरज पाल (सं. 14410353एक्स अब जेसी-299730पी),  
19 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम जसविंदर सिंह (सं. 14406833के अब जेसी-  
299731एक्स), 20 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम संतराज यादव (सं. 15761265वाई अब जेसी-299732ए),  
16 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम बुआ सिंह (सं. 14408265एच अब जेसी-299733एच),  
19 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम कमलेश कुमार मिश्रा (सं. 14413094एल अब  
जेसी-299734एल), 15 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम राम सिंह राठौर (सं. 15102893वाई अब  
जेसी-299735एन), 28 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम जुगेन्द्र सिंह (सं. 14405344एम अब जेसी-  
299736डब्ल्यू), 28 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम सजीव एन (सं. 14407151एल अब जेसी-299737वाई),  
02 अक्टूबर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम महेश कुमार (सं. 14412477एल अब जेसी-299738एफ),  
06 अक्टूबर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम सोरेन मन्ना (सं. 14405514एल अब जेसी-299739के),  
05 नवम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम सतीश सिंह (सं. 14411897वाई अब जेसी-299740वाई),  
17 अक्टूबर 2006/29 अगस्त 2006\*

हवलदार लियाकत अली (सं. 14489856एफ अब  
जेसी-299741एफ), 17 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

हवलदार प्रितम सिंह (सं. 15101981एच अब जेसी-299742के),  
01 नवम्बर 2006

हवलदार गोपाल दास (सं. 14379880पी अब जेसी-299743एम),  
01 नवम्बर 2006

आरएचएम सादक मोहम्मद खान पी (सं. 14411669डब्ल्यू अब  
जेसी-299744पी), 17 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम सिबी जोसेफ (सं. 15761581एक्स अब जेसी-  
299745एक्स), 11 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

हवलदार नारायण दास (सं. 14380383एक्स अब जेसी-299746ए),  
01 दिसम्बर 2006

हवलदार विनोद कुमार शर्मा (सं. 14381312एच अब जेसी-  
299747एच), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार मस्तान सिंह (सं. 14494690पी अब जेसी-299748एल),  
01 दिसम्बर 2006

हवलदार प्रभात कुमार (सं. 14404686एन अब जेसी-299749एन),  
01 दिसम्बर 2006

हवलदार राजा डी (सं. 14387579एन अब जेसी-299750एच),  
16 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006\*

आरएचएम जय भगवान (सं. 14408398वाई अब जेसी-299751एल),  
16 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम अंतपाल सिंह (सं. 14408241वाई अब जेसी-299752एन),  
16 सितम्बर 2006/29 अगस्त 2006\*

आरएचएम राज कुमार (सं. 15101835एच अब जेसी-299753डब्ल्यू),  
20 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम जया सिंह (सं. 14410276एन अब जेसी-299754वाई),  
17 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम पवित्र मोहन बोधा सिंह (सं. 14389996वाई अब  
जेसी-299755एफ), 19 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम सुरीया प्रकाश पी (सं. 14410245एन अब  
जेसी-299756के), 23 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम राजेश एन (सं. 14412426एक्स अब जेसी-299757एम),  
21 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम सुसेन चंद्र दास (सं. 14396105एन अब जेसी-299758पी),  
20 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम अनूप सिंह (सं. 14406854ए अब जेसी-299759एक्स),  
26 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम सर्वजीत (सं. 15761135डब्ल्यू अब जेसी-299760एम),  
22 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम ठनीकृष्ण ए (सं. 14409069पी अब जेसी-299764पी),  
28 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

हवलदार मीनाकेतन बेहेर डोलई (सं. 14494293डब्ल्यू अब  
जेसी-299762एक्स), 01 दिसम्बर 2006

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

सत्यपाल शर्मा, अवर सचिव

सं. 191, दिनांक 29 मार्च 2007--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

सेना डाक सेवा कोर

सूबेदार/लिपिक से सूबेदार मेजर/लिपिक (डाक)

सूबेदार/क्लर्क (डाक) घनश्याम गुलेरिया (जेसी-834087एफ),  
18 अगस्त 2006

नायब सूबेदार/लिपिक से सूबेदार/लिपिक (डाक)

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) शीओ कुमार सिंह (जेसी-834313एच),  
03 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) सुरेन्द्र सिंह (जेसी-834309के),  
07 फरवरी 2006

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) जयपाल सिंह (जेसी-834324वाई),  
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार/क्लर्क (डाक) मदन पाल सिंह (जेसी-834325एफ),  
13 जुलाई 2006

प्रदीप कुमार  
अपर सचिव

सं. 192, दिनांक 3 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म, मूल रैंक की तिथि

आईसी-38549 दिलावर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-38713 एस धीर, आर्टी, 01 मार्च 2006

आईसी-39210 आर एस डडवाल, एओसी, 01 मार्च 2006

आईसी-39367 राजीव कनवर, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-37865 एस सुरेश कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-37752 जी एस धनोआ, आर्टी, 01 मार्च 2006

आईसी-39447 जगमोहन सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-39462 रंजीत सिंह, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006

आईसी-39538 विक्रम महाजन, ईएमई, 01 मार्च 2006

आईसी-39544 के के नैथानी, एओसी, 01 मार्च 2006

आईसी-39819 सतबीर सिंह, आईसी, 01 मार्च 2006

आईसी-37819 एस पाण्डे, एओसी, 01 मार्च 2006

आईसी-37841 किशोर कुमार, एओसी, 01 मार्च 2006

आईसी-40035 एन बी थापा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-40074 दीपक बिष्ट, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-40140 आर एस घुमन, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-40165 के हरि दास, गार्ड्स, 01 मार्च 2006

आईसी-41824 रविन्द्र सिंह, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006

आईसी-40073 वेद प्रकाश, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-37868 पी एस गिल, गार्ड्स, 01 मार्च 2006

आईसी-37869 पी के गंजू, एएससी, 01 मार्च 2006

आईसी-37879 भवानी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-37882 दलीप सिंह, एओसी, 01 मार्च 2006

आईसी-37885 वी के सैनी, आर्टी, 01 मार्च 2006

आईसी-37886 अवतार सिंह, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006

आईसी-37888 वी सी जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-37890 कश्मीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-37892 अश्विनी कुमार, आर्मी एविएशन, 01 मार्च 2006

आईसी-37893 आर सी नायर, गार्ड्स, 01 मार्च 2006

आईसी-37894 दिलेश्वर नाथ, आर्टी, 01 मार्च 2006

आईसी-37895 हरीश जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-37897 डी पी सोपोरी, गार्ड्स, 01 मार्च 2006

आईसी-37907 मलूक सिंह, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006

आईसी-37913 एम सी ए ए पिल्ले, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-37922 जे एस अरोरा, आर्टी, 01 मार्च 2006

आईसी-40290 बी बक्षी, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006

आईसी-40291 ए उप्पल, आर्टी, 01 मार्च 2006

आईसी-40293 ए एस क्लेर, एसी, 01 मार्च 2006

आईसी-40295 ए के सापरा, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006

आईसी-40297 डी एस चौहान, ईएमई, 01 मार्च 2006

आईसी-40299 संजय वर्मा, ईएमई, 01 मार्च 2006

आईसी-40302 आर पी सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-40303 एम पी एस मेन्डोन्का, आर्टी, 01 मार्च 2006

आईसी-40304 आर आहूजा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006

आईसी-40305 आर आर अकेला, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006

आईसी-40306 सुनील गुप्ता, ईएमई, 01 मार्च 2006

|  |  |
|--|--|
| आईसी-40307 एस शेखर, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006         | आईसी-40377 एन सुरी, एसी, 01 मार्च 2006                 |
| आईसी-40308 एस के सक्सेना, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006      | आईसी-40378 बी वी राव, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40312 ए ए महमूद, एसी, 01 मार्च 2006               | आईसी-40380 के जे एस गिल, गाईस, 01 मार्च 2006           |
| आईसी-40313 एच एस झा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006        | आईसी-40382 अरविन्द दत्ता, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40315 प्रेम प्रकाश, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    | आईसी-40384 जॉर्ज जेकब, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40319 ए के चुग, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006           | आईसी-40385 के बी के केशव, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40324 आर के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      | आईसी-40389 एन के तोमर, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006  |
| आईसी-40326 अनिल पाण्डे, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     | आईसी-40393 जे के शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 |
| आईसी-40328 एन कुमार, गाईस, 01 मार्च 2006               | आईसी-40394 बी वालिया, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40329 प्रताप सिंह, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006        | आईसी-40395 एन बालान, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006        |
| आईसी-40330 एस एम सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      | आईसी-40399 डी शर्मा, इन्ट, 01 मार्च 2006               |
| आईसी-40331 एस सी शरण, आर्टी, 01 मार्च 2006             | आईसी-40400 के के मेनन, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40332 आर डी मुडगिल, एएडी, 01 मार्च 2006           | आईसी-40403 के एस कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40333 मिकी ओबराय, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006      | आईसी-40405 एस पी एस औलखा, एएडी, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40335 अशुन बहल, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006        | आईसी-40406, एन आर लामा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40340 पी पी डेविस, एएडी, 01 मार्च 2006            | आईसी-40407 ए के अग्रवाल, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40343 एस धर, एसी, 01 मार्च 2006                   | आईसी-40408 सी मणि, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40345 लक्ष्मी नारायण, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006  | आईसी-40411 एम श्रीकुमार, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40346 सी भारती, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006        | आईसी-40412 एस कुमार, एएडी, 01 मार्च 2006               |
| आईसी-40347 ए एन गुडी, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006          | आईसी-40413 के बी थापा, आर्टी, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40352 राकेश अरोड़ा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    | आईसी-40416 धीरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006  |
| आईसी-40353 परमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     | आईसी-40421 एस के भनोट, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40355 ए चौहान, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006         | आईसी-40422 नवतेज सिंह, गाईस, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40357 वी एस मल्ल, एओसी, 01 मार्च 2006             | आईसी-40425 आर के रंजन, आर्टी, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40359 ए के गोयल, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       | आईसी-40428 एस एस रत्नपारखी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 |
| आईसी-40360 ए बी मिस्त्री, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006   | आईसी-40429 एस एस जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40362 ओ पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       | आईसी-40435 जी वी जी प्रसाद, आर्टी, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40363 एन जे जॉर्ज, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     | आईसी-40438 जी एन पुराण्डरे, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40364 गजेन्द्र प्रसाद, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 | आईसी-40442 आर बाली, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40366 आनन्द सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      | आईसी-40445 जे एस गुलाटी, एओसी, 01 मार्च 2006           |
| आईसी-40367 डी एस गौरेया, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    | आईसी-40446 एच एस फौजदार, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40371 पी कुमार, आर्टी, 01 मार्च 2006              | आईसी-40448 एस एस नेगी, एएससी, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40373 कंवलजीत सिंह, एएडी, 01 मार्च 2006           | आईसी-40471 मुकेश कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40374 के ए महाबीर, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     | आईसी-40476 अशोक गहलोत, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |

|            |  |            |   |
|------------|--|------------|---|
| आईसी-40478 | पी एम रथ, आर्टी, 01 मार्च 2006             | आईसी-42241 | आशीष कुमार, ईएमई, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40487 | बी एस धीमन, एएडी, 01 मार्च 2006            | आईसी-42244 | ए सलमान, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006         |
| आईसी-40489 | ए एस एहलोवालिया, एओसी, 01 मार्च 2006       | आईसी-37930 | एस के वर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40490 | चंदन कुमार, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006     | आईसी-37931 | नवनीत कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40500 | वाई के जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    | आईसी-37932 | एन के नारायण, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40506 | जी एन गोस्वामी, एएससी, 01 मार्च 2006       | आईसी-37934 | बी डी चौगुले, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40508 | एस के साहनी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    | आईसी-37937 | एन वी रामचन्द्र, आर्टी, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40511 | एन के अगुरु, एओसी, 01 मार्च 2006           | आईसी-37940 | एस रमन, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40513 | वरिन्द्र सिंह, एएससी, 01 मार्च 2006        | आईसी-37944 | अरविन्द सिंह, एएससी, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40514 | आर एस धनवत, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006        | आईसी-37947 | सी आर सी मेनन, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40515 | सुबोध कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    | आईसी-37955 | रवि कान्त पोपली, आर्टी, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40516 | बी पी भारद्वाज, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 | आईसी-37956 | नवदीप माथुर, एसी, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40517 | संदीप काला, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     | आईसी-37960 | एल शेखर, ईएमई, 01 मार्च 2006                |
| आईसी-40518 | एम मन्ना, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006       | आईसी-37962 | अमरजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40519 | बृज भूषण सिंह, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006     | आईसी-37966 | आर के त्रिपाठी, जेएजी, 01 मार्च 2006        |
| आईसी-40523 | बी आर सिंह, एसी, 01 मार्च 2006             | आईसी-37977 | ए अमर फारुख, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006        |
| आईसी-40530 | गुरमीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    | आईसी-37979 | पी वेन्गोपाल, आर्टी, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40531 | एस एस राय, इन्जीनियर्स, 01 मार्च 2006      | आईसी-37981 | संजीव उपाध्याय, ईएमई, 01 मार्च 2006         |
| आईसी-40534 | एम एन भुके, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006        | आईसी-37993 | एस सोई, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40538 | एस एस ठाकुर, ईएमई, 01 मार्च 2006           | आईसी-37969 | एन पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40542 | वी वी रेड्डी, इन्ट, 01 मार्च 2006          | आईसी-40836 | एस मुखर्जी, आर्टी, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40545 | ए के गेरा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      | आईसी-40680 | पी एन राव, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40548 | सोबन सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      | आईसी-40682 | ए एस कार्की, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 |
| आईसी-40550 | टी पी सिंह, एएससी, 01 मार्च 2006           | आईसी-40684 | संजीव सहगल, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40561 | एम टी ऑग्रेस्टीन, आर्टी, 01 मार्च 2006     | आईसी-40685 | आर शुक्ला, आर्टी, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40567 | ए के सिंह, एएससी, 01 मार्च 2006            | आईसी-40686 | के ए वी भास्कर, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40568 | के उमामाहेश्वर, आर्टी, 01 मार्च 2006       | आईसी-40687 | एस राजशेखरन, एओसी, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40574 | हितेश लव, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       | आईसी-40688 | आर वी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40585 | एल के मथाई, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 | आईसी-40689 | आर एस कोचर, ईएमई, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40590 | जे चौधरी, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006          | आईसी-40692 | एस वी नयगम, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006  |
| आईसी-40597 | विपन गुप्ता, एएससी, 01 मार्च 2006          | आईसी-40693 | एस के पाणीग्रही, आर्टी, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40600 | वाई एस कुमार, आर्टी, 01 मार्च 2006         | आईसी-40694 | आर अवतार, गार्ड्स, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40617 | एस के शर्मा, एओसी, 01 मार्च 2006           | आईसी-40695 | जे एस विर्क, ए सी, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40623 | पी के सिंह, आर्टी, 01 मार्च 2006           |            |   |

|   |  |
|---|--|
| आईसी-40699 के सीताराम, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006          | आईसी-40760 वी एस श्रीनिवास, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40700 एस थापा, आर्टी, 01 मार्च 2006                  | आईसी-40761 जी शौनिक, एसी, 01 मार्च 2006                    |
| आईसी-40701 के एस शेखावत, आर्मी एविएशन, 01 मार्च 2006      | आईसी-40764 आर मेनन, आर्टी, 01 मार्च 2006                   |
| आईसी-40702 ए तलवार, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006        | आईसी-40769 एम जी हरिमोहन, आर्टी, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40703 हरपाल सिंह, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006          | आईसी-40772 एस अजीमुद्दीन, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40704 राणा गजराज सिंह, ईएमई, 01 मार्च 2006           | आईसी-40773 एन राजोरा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006           |
| आईसी-40707 डी एस गिल, आर्टी, 01 मार्च 2006                | आईसी-40777 एम एस जसवाल, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006         |
| आईसी-40709 अजय अहलूवालिया, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006      | आईसी-40778 बलबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40710 एस मेहता, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006           | आईसी-40779 सुरेश कुमार, एएससी, 01 मार्च 2006               |
| आईसी-40711 टी सी मैथ्यू, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006        | आईसी-40781 एस एस चौहान, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006         |
| आईसी-40712 टी एस सिन्हा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       | आईसी-40782 एम एस मान, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006           |
| आईसी-40713 कुलदीप मेहता, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       | आईसी-40787 आर के सुब्रमणि, ईएमई, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40714 बी जी गिलगंभी, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006         | आईसी-40792 डी ए चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40715 आर एस राठौर, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006        | आईसी-40794 वी एस नारंग, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40716 एम सी पाण्डे, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006        | आईसी-40795 एस नारायण, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006           |
| आईसी-40717 एस धवन, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006             | आईसी-40796 आर पी एस संघू, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40720 एस शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006           | आईसी-40798 के पी आर हरि, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006        |
| आईसी-40721 प्रीती सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006        | आईसी-40800 वी डी अब्राहम, ईएमई, 01 मार्च 2006              |
| आईसी-40722 कुलप्रीत सिंह, एसी, 01 मार्च 2006              | आईसी-40801 आर के बंसीवाल, इन्ट, 01 मार्च 2006              |
| आईसी-40724 आर सी पठनिया, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006        | आईसी-40802 राजीव घई, ईएमई, 01 मार्च 2006                   |
| आईसी-40727 आर के चौधरी, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006           | आईसी-40804 दिग्विजय सेतिया, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40729 डी जे एस काटकर, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 | आईसी-40805 जी एम शंकर, आर्टी, 01 मार्च 2006                |
| आईसी-40732 एस यू दशरथ, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006         | आईसी-40807 जी के शर्मा, गार्ड्स, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40736 एम के मुखर्जी, आर्टी, 01 मार्च 2006            | आईसी-40811 एस जे चितले, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40741 बी एस संघू, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006         | आईसी-40812 पी एम वत्स, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40742 विजय रावत, ईएमई, 01 मार्च 2006                 | आईसी-40813 मनदीप सिंह, एएडी, 01 मार्च 2006                 |
| आईसी-40744 एस थापर, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006            | आईसी-40814 के किशोर, एएडी, 01 मार्च 2006                   |
| आईसी-40746 के ए चिन्नप्पा, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 | आईसी-40815 अनूप भास्कर, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40748 एच के अरोडा, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006         | आईसी-40818 रामबीर सिंह मान, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 |
| आईसी-40749 पी एस पानेसर, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006          | आईसी-40819 आर के चोपड़ा, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006           |
| आईसी-40750 एम श्रीनिवासन, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006       | आईसी-40822 एस रामाकृष्णन, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40753 एम जे एस कहलोन, एसी, 01 मार्च 2006             | आईसी-40824 ए सेठ, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006               |
| आईसी-40755 एस प्रताप, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006          | आईसी-40825 जे सी रंगरा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006         |
| आईसी-40757 वी साहनी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006           | आईसी-40826 एस के तिवारी, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006         |

|   |  |
|---|--|
| आईसी-40833 नवनीत मित्तल, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006    | आईसी-40934 ए के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40837 दिपेन्द्र सरीन, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 | आईसी-40936 एन पी चंद्रन, एएससी, 01 मार्च 2006        |
| आईसी-40838 बी पटनायक, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      | आईसी-40948 के आर प्रसाद, आर्टी, 01 मार्च 2006        |
| आईसी-40841 ए ए भट्ट, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006          | आईसी-40956 ललित कपूर, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40844 एम एम नेहरू, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006    | आईसी-40958 आर के शर्मा, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40849 परमिन्दर सिंह, एसी, 01 मार्च 2006          | आईसी-40963 अमिताभ अमित, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40851 आर के नायर, आर्टी, 01 मार्च 2006           | आईसी-40966 एस सुरी, एएडी, 01 मार्च 2006              |
| आईसी-40852 बी भट्टाचार्य, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006   | आईसी-40968 वाई एस राणा, एएडी, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40853 एस चक्रवर्ती, एएससी, 01 मार्च 2006         | आईसी-40974 पी पी सिंह, एएससी, 01 मार्च 2006          |
| आईसी-40854 आर एस भाटिया, एसी, 01 मार्च 2006           | आईसी-40977 एस एस डिल्लन, ईएमई, 01 मार्च 2006         |
| आईसी-40861 संजय प्रसाद, ईएमई, 01 मार्च 2006           | आईसी-40981 नरिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 |
| आईसी-40864 एस डी वजे, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      | आईसी-40982 जी एस औल, आर्टी, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40866 एस के चंद, एओसी, 01 मार्च 2006             | आईसी-40991 अमित तिमोती, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40869 आर सी द्विवेदी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 | आईसी-41004 रमन महना, एएससी, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40873 आर नागराज, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006         | आईसी-41005 पीसी पटनायक, आर्टी, 01 मार्च 2006         |
| आईसी-40874 डीवी राजू, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      | आईसी-41007 एन कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40876 एस पचोरी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006       | आईसी-41024 सी एन गिरीश, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40880 राजेश दीक्षित, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006     | आईसी-41025 टी एस ए नारायणन, ईएमई, 01 मार्च 2006      |
| आईसी-40882 जे के तिवारी, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006   | आईसी-41034 वाई वी आर विजय, ईएमई, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40884 ए एस हर्गे, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     | आईसी-42679 जेपी सिंह, ईएमई, 01 मार्च 2006            |
| आईसी-40885 आर सी वर्गिस, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006    | आईसी-42683 के आर बाबू, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40887 टी एस संधू, एसी, 01 मार्च 2006             | आईसी-42686 एच के त्रिवेदी, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40889 एन के उन्नी, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006       | आईसी-42688 डी जे पाठक, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40894 विरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006 | आईसी-42690 ए के सुर, ईएमई, 01 मार्च 2006             |
| आईसी-40897 एस के अरोडा, एएससी, 01 मार्च 2006          | आईसी-42693 ए के कोचर, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006        |
| आईसी-40900 ए के मल्ल, आर्टी, 01 मार्च 2006            | आईसी-42698 एस राजाराम, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40901 के मेन्डोन्का, एएससी, 01 मार्च 2006        | आईसी-42699 ए के जिन्दल, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40904 के एस निज्जर, आर्टी, 01 मार्च 2006         | आईसी-42700 श्रीधरन नायर, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40906 एन के राजा, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006     | आईसी-42703 जे एम दुर्गापाल, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006  |
| आईसी-40909 एन लाल, एसी, 01 मार्च 2006                 | आईसी-42708 संजय वाजपेई, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006    |
| आईसी-40913 आर के गोयल, आर्टी, 01 मार्च 2006           | आईसी-42716 वी एन मूर्ति, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006   |
| आईसी-40918 बद्री विठ्ठल, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006    | आईसी-42725 वी के सिंह, सिग्नल्स, 01 मार्च 2006       |
| आईसी-40923 वी कोहली, आर्टी, 01 मार्च 2006             | आईसी-42692 ए के शर्मा, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2006     |
| आईसी-40933 एम वी चंद्रन, इन्फैन्ट्री, 01 मार्च 2006   | आईसी-42742 हेमन्त, इन्ट, 01 मार्च 2006               |



आईसी-37964 राजेश आनन्द, आर्टी, 01 मार्च 2006  
 आईसी-03830 आनन्द कुमार, एसएलक्यूएम, 01 मार्च 2006  
 आईसी-02929 आर एस सांगवान, एसएलआरओ, 01 मार्च 2006  
 आईसी-41041 पूनम बाली, एमएफ, 01 मार्च 2006  
 ले. कर्नल (समयमान द्वारा) से ले. कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में  
 पदोन्नति सर्वे ऑफ इंडिया  
 आईसी-39855 चंदन चटर्जी, इंजीनियर्स, 19 नवम्बर 2001

अजय गोयल  
 उप निदेशक  
 एम एस-8ए

सं. 193, दिनांक 30 मार्च 2007.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नतियां प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना  
 प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर एस के सूद (टीए-41647) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 मेजर पी एम एम राव (टीए-41702) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 मेजर डी सी डोगरा (टीए-41944) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 मेजर राकेश बेहल (टीए-41947) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 मेजर एन के तुली (टीए-41972) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 कैप्टन से मेजर बनाया जाता है

कैप्टन जसवन्त सिंह (टीए-42118) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 कैप्टन बी मुडिया (टीए-42196) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 कैप्टन एस के बैरवा (टीए-42205) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 कैप्टन बी नस्कर (टीए-42270) इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

एन कालियापन  
 अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 194, दिनांक 3 अप्रैल 2007.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

नाम, आईसी आर्म--लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में प्रभावी तिथि  
 मेजर जनरल सत्यवीर यादव, यूवाईएसएम ए वी एस  
 एम--(आईसी-26838), कुमाऊं--01.12.2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन  
 व पेंशन पर असर डाले बिना 01.11.2005 से दी जाएगी।

एन के फूकन  
 ए एम एस/एम एस (एमएस)

सं. 195, दिनांक 28 मार्च 2007.--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के उप सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 28 फरवरी, 2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के उप सचिव श्री भुवनेश्वर लाल दास की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 28 फरवरी, 2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस के देव  
 अवर सचिव

शुद्धिपत्र

सं. 196, दिनांक 03 अप्रैल 2007.--भारत के राजपत्र सं. 312 में दिनांक 25 जून 2005 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप-शीर्षक कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

आईसी-54865 तारक मजूमदार, आर्टी

के सामने

--16 दिसम्बर 2004--

के बदले

पढ़ा जाए : 06 नवम्बर 2003

शिव राम बैरवा  
 उप निदेशक  
 एम एस-8सी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st April 2007

No. 185, dated 28th March 2007—The President is pleased to appoint Shri Shashi Kant Sharma, IAS (BH:76), Joint Secretary, Ministry of Defence as Additional Secretary, in the same Ministry, w.e.f. 10.2.2007 (FN) by in-situ upgradation of the post held by him.

Consequent on his selection for appointment as Chief Vigilance Officer in the Damodar Valley Corporation, the services of Shri Gautam Chatterjee, IAS (MH:82), Joint Secretary, Ministry of Defence are prematurely repatriated from this Ministry and are placed at the disposal of the Damodar Valley Corporation, Kolkata on deputation basis w.e.f. 19.2.2007 (FN). The period of deputation of Shri Chatterjee will be up to 11th November, 2009, or until further orders, whichever is earlier. The officer will have the option to draw his grade pay plus deputation allowance, if admissible or pay of the post.

The President is pleased to appoint Smt. Anjali Singh, IA&AS (96) on transfer from the Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board-I, New Delhi as Deputy Secretary in the Ministry of Defence w.e.f. 16.1.2007 (FN) up to 15.1.2011 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Himank Kothiyal, IIS (93) as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A.K. Antony) in the scale of pay of Rs. 6500-10500/- w.e.f. 18.12.2006 (AN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

S. K. DEB  
Under Secy.

## ARMY BRANCH

No. 186, dated 2nd April 2007—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The under mentioned 201 officers of SSC (NT)-81 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 18 Mar 2006. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of five years wef 18 Mar 2006 (except SS-41850Y Amos Hungyo, Arty who has been granted Short Service Commission wef 03 Aug 2006) under the provisions of SAI 3/S/98 as amended :—

| Personal Number | Name                         | Arm/Service |
|-----------------|------------------------------|-------------|
| 1               | 2                            | 3           |
| SS-41805M       | Amritpal Singh               | Inf         |
| SS-41806P       | Praveen Kumar                | Arty        |
| SS-41807X       | Nilesh Nagesh Patil          | AOC         |
| SS-41808A       | Desmond Fredrick Hyde        | AC          |
| SS-41809H       | Jumade Abhishekh Digambarrao | Mech        |
| SS-41810X       | Cheba Parag Vimal Kumar      | Inf         |
| SS-41811A       | Anil Kumar Salgotra          | Inf         |
| SS-41812H       | Jigyasu Puri                 | Arty        |
| SS-41813L       | Anil Kumar                   | ASC         |
| SS-41814N       | Abhik Dutta                  | Inf         |
| SS-41815W       | Akiwate Sachin Sambhajirao   | Inf         |
| SS-41816Y       | Anil Kumar                   | Arty        |
| SS-41817F       | Suraj R Jakanur              | Inf         |
| SS-41818K       | Singh Negi Mahendra Diwan    | Arty        |
| SS-41819M       | Vivek Kumar Jaswal           | Inf         |
| SS-41820F       | Babbar Bhan                  | Arty        |
| SS-41821K       | Krishan Pal Singh Shekhawat  | Inf         |
| SS-41822M       | Dushyant Singh Shekhawat     | Inf         |
| SS-41823P       | Sandeep Kurup                | Inf         |
| SS-41824X       | Shankpal Suraj Prakashrao    | Inf         |
| SS-41825A       | Rahul Tanwar                 | ASC         |
| SS-41826H       | Satish Kumar Singh           | Arty        |
| SS-41827L       | Ch Suaneilal Aimol           | Inf         |
| SS-41828N       | Suman Kumar Sinha            | AAD         |
| SS-41829W       | Bhaskar Limbu                | Inf         |
| SS-41830L       | Shivshankar Deep S           | Inf         |
| SS-41831N       | Mousam Kumar                 | Arty        |
| SS-41832W       | Naveen VK                    | Inf         |
| SS-41833Y       | Pritikant Mohapatra          | AAD         |
| SS-41834F       | Kishore Kumar                | Arty        |
| SS-41835K       | Rakesh Kumar Dandapat        | AAD         |
| SS-41836M       | Rajinder Rathore             | Arty        |
| SS-41837P       | N Parthiban                  | Inf         |
| SS-41838X       | Sharad Henery Joseph         | Arty        |
| SS-41839A       | Tej Pratap Singh             | Inf         |

| 1         | 2                         | 3    | 1         | 2                          | 3    |
|-----------|---------------------------|------|-----------|----------------------------|------|
| SS-41840P | Neeraj Gupta              | Arty | SS-41877W | Bharat Bhushan             | AAD  |
| SS-41841X | Anurag Singh              | Arty | SS-41878Y | Mukund V                   | Inf  |
| SS-41842A | Susheel Kumar Choudhary   | Arty | SS-41879F | Kishor Singh               | Arty |
| SS-41843H | Sharab Babar              | Mech | SS-41880W | Raveendra Boodihal         | Inf  |
| SS-41844L | Akoijam Chinglemba Meitei | Inf  | SS-41881Y | Mahesh Kumar S Malagitti   | Inf  |
| SS-41845N | Jadhav Mandar Chandrakant | Inf  | SS-41882F | Ramandeep Makkar           | Arty |
| SS-41846W | Bhaskar Joshi             | AOC  | SS-41883K | Shastry Sumeet Shashi      | Arty |
| SS-41847Y | Jaishankar Singh          | Inf  | SS-41884M | Abhinav Kumar              | Mech |
| SS-41848F | Pradeep Kumar             | Inf  | SS-41885P | Mukesh Kumar K             | Arty |
| SS-41849K | Vikas Chauhan             | Inf  | SS-41886X | Neelabh Joshi              | AOC  |
| SS-41850Y | Amos Hungyo               | Arty | SS-41887A | Ugale Ghansham Chandrakant | Inf  |
| SS-41851F | Rohit Guleria             | Inf  | SS-41888H | Vickey Chettri             | Arty |
| SS-41852K | Zakievilhou Zinyu         | Int  | SS-41889L | Kuldeepak Rana             | AAD  |
| SS-41853M | Girish Kumar Sharma       | Inf  | SS-41890A | Rohit Prakash Naik         | Inf  |
| SS-41854P | Vikas Sharma              | Inf  | SS-41891H | Robbin Sangwan             | Inf  |
| SS-41855X | Jai Deep                  | Arty | SS-41892L | Thakkar Chirag Jayshih     | AAD  |
| SS-41856A | C H Jacob                 | Inf  | SS-41893N | Harikesh Pratap Singh      | AOC  |
| SS-41857H | Guriqbal Singh            | Arty | SS-41894W | Gaikwad Shamrao Anand      | Inf  |
| SS-41858L | Omkar Joshi               | AC   | SS-41895Y | T Krishna Kumar            | Inf  |
| SS-41859N | M P Aiyappa               | AC   | SS-41896F | Akshay Vijay Pawar         | AC   |
| SS-41860H | Harsha Kumar              | Inf  | SS-41897K | Vikas Kundu                | AAD  |
| SS-41861L | Randeep Singh Bika        | Inf  | SS-41898M | Vanlalsanga                | Inf  |
| SS-41862N | Manish Singh              | Inf  | SS-41899P | M Kamala Kannan            | Arty |
| SS-41863W | Vinay Kumar Pandey        | Inf  | SS-41900Y | Desai Dhanaji Chandrakant  | Inf  |
| SS-41864Y | Rakesh Kumar Singh        | Arty | SS-41901F | Atul Deoli                 | Arty |
| SS-41865F | Manvinder Bali            | ASC  | SS-41902K | Pradeep Kumar Sheokand     | Inf  |
| SS-41866K | Prateek Malik             | AC   | SS-41903M | Varun Vashista             | ASC  |
| SS-41867M | Gurusiddagoud Patil       | Inf  | SS-41904P | Shrinidhi C J              | AAD  |
| SS-41868P | Syed Asif Iqbal           | Arty | SS-41905X | Chengappa C G              | Mech |
| SS-41869X | Abhishek Rathee           | Inf  | SS-41906A | Deepesh Prakash            | Inf  |
| SS-41870M | Haorokcham Khagemba       | Inf  | SS-41907H | Gaurav Singh               | Arty |
| SS-41871P | Amit Kumar Pandey         | Inf  | SS-41908L | Vikash Raizada             | AOC  |
| SS-41872X | Gurpreet Singh            | AAD  | SS-41909N | Arun Kumar Yadav           | Arty |
| SS-41873A | Guramar Singh             | AAD  | SS-41910H | Brahmdev Singh             | AOC  |
| SS-41874H | Neeraj Tuli               | Arty | SS-41911L | Arvind Singh Rathore       | Inf  |
| SS-41875L | Amit Kumar Yadav          | Arty | SS-41912N | Sunil Kumar                | Inf  |
| SS-41876N | Manoj Kumar Khati         | Inf  | SS-41913W | Manish Shrestha            | Inf  |

| 1         | 2                          | 3    |
|-----------|----------------------------|------|
| SS-41914Y | Ashish R Chandran          | Inf  |
| SS-41915F | Nair Sajith Krishnan       | AAD  |
| SS-41916K | Anshuman Sharma            | Inf  |
| SS-41917M | Kapil Pathak               | ASC  |
| SS-41918P | Swagat Sharma              | AC   |
| SS-41919X | Gajendra S Shekhawat       | Inf  |
| SS-41920M | Zorawar Singh Jamwal       | Inf  |
| SS-41921P | Pankaj Singh               | Inf  |
| SS-41922X | Ravi Panwar                | Inf  |
| SS-41923A | Gaurav Mishra              | Inf  |
| SS-41924H | Manish Gosain              | Inf  |
| SS-41925L | Sharat Anigol              | Mech |
| SS-41926N | Abhishekh Sandu            | Arty |
| SS-41927W | Ginsonlal Tonsing          | Inf  |
| SS-41928Y | Polumuri Raj Kumar         | Int  |
| SS-41929F | Sidharth Singh Sambyal     | Inf  |
| SS-41930W | Mahender Singh             | Arty |
| SS-41931Y | Jagpal Singh               | Int  |
| SS-41932F | Prajjwal Dixit             | Inf  |
| SS-41933K | Udhishteer Khaldania       | ASC  |
| SS-41934M | Gurpreet Singh Arora       | Arty |
| SS-41935P | Nagpal Jitender            | AAD  |
| SS-41936X | Vikram Vijay               | Inf  |
| SS-41937A | Rajat Singh                | AOC  |
| SS-41938H | Arun Kumar Vashisth        | AC   |
| SS-41939L | Ankit Malhotra             | Inf  |
| SS-41940A | Ritesh Kumar               | AOC  |
| SS-41941H | Ashwin Pundir              | AC   |
| SS-41942L | Amrish Dubey               | AOC  |
| SS-41943N | Lotos Spalges              | Inf  |
| SS-41944W | Abraham Anand Arunkumar    | Arty |
| SS-41945Y | Ajay B Rao                 | AAD  |
| SS-41946F | Taresh Sharma              | Arty |
| SS-41947K | Sartaj Singh Pannu         | AOC  |
| SS-41948M | Shankarnarayan Subramaniam | Arty |
| SS-41949P | Vikas Lamba                | Arty |
| SS-41950K | Ajay Yadav                 | AOC  |

| 1         | 2                                  | 3    |
|-----------|------------------------------------|------|
| SS-41951M | Gopal Arora                        | Int  |
| SS-41952P | Thounaojam Nongpoknganba           | Inf  |
| SS-41953X | Ishwar Singh Purohit               | AOC  |
| SS-41954A | Nair Rajeev Sashidharan            | Inf  |
| SS-41955H | Ashish Saxena                      | Inf  |
| SS-41956L | Balveer Singh Rathore              | Int  |
| SS-41957N | Khaisommang Vaiphei                | Inf  |
| SS-41958W | Ram Chander                        | AOC  |
| SS-41959Y | Upmanyu Singh                      | AC   |
| SS-41960N | Atin Gupta                         | AAD  |
| SS-41961W | Shwetabh Singh                     | Inf  |
| SS-41962Y | Tribhuwan Kant Sharma              | AAD  |
| SS-41963F | Prashant Dhawan                    | Int  |
| SS-41964K | Aritra Rakshit                     | Arty |
| SS-41965M | D'souza Stanley John Victor Ronald | Arty |
| SS-41966P | Mir Nadim                          | Arty |
| SS-41967X | Jadhav Sachinkumar Rajaram         | Arty |
| SS-41968A | Yogesh Lad                         | Inf  |
| SS-41969H | Krishan Dayal Singh Rathore        | Arty |
| SS-41970X | Snehal Nair                        | AOC  |
| SS-41971A | Rakesh Ranjan                      | Inf  |
| SS-41972H | Sood Vikrant Vinay                 | AC   |
| SS-41973L | Amit Kumar                         | Mech |
| SS-41974N | Lalit Mohan Sharma                 | Inf  |
| SS-41975W | Manish Gupta                       | Arty |
| SS-41976Y | Sumit Joshi                        | ASC  |
| SS-41977F | Abhishek Banerjee                  | Inf  |
| SS-41978K | Deepak Rathor                      | AAD  |
| SS-41979M | Dijendar Singh                     | Inf  |
| SS-41980F | A P C Rajesh                       | Arty |
| SS-41981K | Christo Sudeep D'souza             | Arty |
| SS-41982M | N Prasanna                         | Arty |
| SS-41983P | Dhruvashree Das                    | Inf  |
| SS-41984X | Amitabh Ghosal                     | AC   |
| SS-41985A | Vijay Kumar                        | ASC  |

| 1         | 2                           | 3    |
|-----------|-----------------------------|------|
| SS-41986H | Dhrubabrata Kakoti          | Inf  |
| SS-41987L | Regil Raj Abraham           | Arty |
| SS-41988N | Viraat Kaushal              | Arty |
| SS-41989W | Vartak Hrishikesh Sudhanshu | Arty |
| SS-41990L | Kumar Anurag Singh          | Inf  |
| SS-41991N | Deepak Choudhary            | AAD  |
| SS-41992W | Gaurav Tewari               | Inf  |
| SS-41993Y | Anirudh Anand               | Mech |
| SS-41994F | Ramakanth R                 | Arty |
| SS-41995K | Arin Singh                  | Arty |
| SS-41996M | Udaivir Singh Sangwan       | AOC  |
| SS-41997P | Sain A Navin                | Arty |
| SS-41998X | Prasobh K R                 | Int  |
| SS-41999A | Inderjeet Singh Rathore     | AC   |
| SS-42000F | Rahul Jha                   | Arty |
| SS-42001K | Mahesh Raja                 | Arty |
| SS-42002M | Jitender Singh              | JAG  |
| SS-42003P | Gautham C                   | Arty |
| SS-42004X | Pranay N Jasoria            | Arty |
| SS-42005A | Abhishek Parmar             | Inf  |

1. The under mentioned 48 Officers of WSES(O)-27 Course have completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 18 Mar 2006. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of five years wef 18 Mar 2006 under the provisions of SAI I/S/92 as amended :—

| Personal Number | Name                   | Arm/Service |
|-----------------|------------------------|-------------|
| 1               | 2                      | 3           |
| WS-01138F       | Neelam Rathee          | ASC         |
| WS-01139K       | Neha Shukla            | AAD         |
| WS-01140Y       | Sunaina                | Int         |
| WS-01141F       | Anshu Jamwal           | AAD         |
| WS-01144P       | Anila Khatri           | AAD         |
| WS-01145X       | Nakil Pallavi Bajarang | AAD         |
| WS-01146A       | Sonia Bhardwaj         | JAG         |
| WS-01148L       | Annapurna Pradhan      | Int         |
| WS-01149N       | Singh Anjali Madan     | JAG         |

| 1           | 2                              | 3   |
|-------------|--------------------------------|-----|
| WS-01151L   | Sulekha Rinki                  | AOC |
| WS-01152N   | Shivani Chibh                  | JAG |
| WS-01154Y   | Surabhi Singh                  | AOC |
| WS-01157M   | Dave Meera Pradipkumar         | AOC |
| WS-01158P   | Ganina                         | ASC |
| WS-01161P   | Jyoti Godara                   | AAD |
| WS-01162X   | Jyotsna Singh                  | AOC |
| WS-01163A   | Deshpande Aboli Anant          | Int |
| WS-01164H   | Swati Sharma                   | AOC |
| WS-01165L   | Lakshmi Mohan                  | ASC |
| ✓ WS-01167W | Twinkle Rawat                  | AOC |
| WS-01169F   | Neema Goel                     | ASC |
| WS-01170W   | Amrita Negi                    | AAD |
| WS-01171Y   | Jasmeet Kaur                   | AOC |
| WS-01174M   | Ritu Singh                     | AOC |
| WS-01175P   | Kole Amruta Balasaheb          | AAD |
| WS-01176X   | Sapna Sinha                    | AAD |
| WS-01178M   | Sony Dahiya                    | AAD |
| WS-01179L   | Archana Tyagi                  | AOC |
| WS-01181H   | Venkata Nagalakshmi A          | AOC |
| WS-01183N   | Sandeepika Khara               | ASC |
| WS-01185Y   | Anjali Mehan                   | Int |
| WS-01186F   | Bhingardeve Reshma Chandrakant | ASC |
| WS-01187K   | Teena Dhir                     | ASC |
| WS-01188M   | Shailvi Singh                  | AOC |
| WS-01189P   | Jaswinder Kaur                 | AOC |
| WS-01190K   | Priyanka Manhas                | AOC |
| WS-01192P   | Ramandeep Kaur Mundi           | ASC |
| WS-01193X   | Mehjabee Khan                  | AOC |
| WS-01194A   | Prerna Preeti                  | AOC |
| WS-01195H   | Ila                            | AOC |
| WS-01196L   | Pragya Joshi                   | Int |
| WS-01197N   | Anamika Rai                    | ASC |
| WS-01199Y   | Sadhana Rawal                  | Int |
| WS-01200H   | Anupriya Das                   | AOC |
| WS-01201L   | Reena Gairola                  | AOC |
| WS-01203W   | Sasmita Mahapatra              | AEC |
| WS-01204Y   | Jadhav Savita Rajaram          | ASC |
| WS-01207M   | Shyamali Arya                  | AEC |

2. The undermentioned 17 Officers of WSES(O)-27 Course are granted Special Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No. 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) wef date shown against their Names below. On successful completion of their training at OTA Chennai, their Special Short Service Commission (on probation) is confirmed, ie, they are granted Short Service Commission for five years wef 18 Mar 2006. They are also granted two years ante-date seniority for promotion and increments of pay wef 21 Mar 2004 for possession of technical qualification under the above AI:—

| Personal Number | Name                       | Effective Date of Special Short Service Commission (on probation) | Arm/Service |
|-----------------|----------------------------|---|-------------|
| WS-01142K       | Gayatri Hooda              | 03.10.2005  | Engrs       |
| WS-01143M       | Padman Anita Ashok         | 03.10.2005  | EME         |
| WS-01150H       | Anuja Hanmant Varudkar     | 03.10.2005  | Engrs       |
| WS-01153W       | Poonam Boora               | 03.10.2005  | Engrs       |
| WS-01156K       | Chelur Sumalata Nagaraj    | 03.10.2005  | EME         |
| WS-01160M       | Gouri Tiwari               | 03.10.2005  | Engrs       |
| WS-01166N       | Aanchal Porwal             | 03.10.2005  | EME         |
| WS-01172F       | Pillai Divya Gopinathan    | 03.10.2005  | Engrs       |
| WS-01173K       | Tarini Shukla              | 03.10.2005  | Engrs       |
| WS-01177A       | Priyanka Sindwani          | 03.10.2005  | EME         |
| WS-01180A       | Sashmita Behera            | 03.10.2005  | EME         |
| WS-01182L       | Neetu                      | 03.10.2005  | Engrs       |
| WS-01191M       | Bhagat Radhika Chandrakant | 03.10.2005  | Sigs        |
| WS-01198W       | Poonam Verma               | 03.10.2005  | EME         |
| WS-01202N       | Asha Roshni M S            | 03.10.2005  | Sigs        |
| WS-01206K       | Ulapu Sandhyalakshmi       | 03.10.2005  | Engrs       |
| WS-01208P       | Sagarika M                 | 03.10.2005  | Sigs        |

The undermentioned officers of SSC (Tech)-23 Course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the terms and conditions of AI 1/93. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of five years wef 17 Sep 2005. They have also been granted two year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 17 Sep 2003 under SAI 1/S/94 as amended :

Sanjeev Kumar Rao (SS-41472L), Sigs with seniority just above Lt Pisal Abhay Vijaysinh (SS-41473N), EME, Pankaj Verma (SS-41482P), Sigs with seniority next below Lt Sarabjot Singh Sohi (SS-41481M), EME, Raisan Ansari (SS-41488W), Sigs with seniority next below Lt Vivek Bindra (SS-41487N), Engrs, Parveen Dogra (SS-41494K), Sigs with seniority next below Lt Deepak Verma (SS-41493F), EME and V Subash Kanna (SS-41505L), EME with seniority next below Lt Raju B (SS-41504H), Engrs whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 06 May 2006.

The undermentioned officers of SSC (Tech)-22 Course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the terms and conditions of AI 1/93. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of five years wef 19 Mar 2005. They have also been granted two year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 19 Mar 2003 under SAI 1/S/94 as amended :—

Somarapeta Jagadeesh Kumar (SS-41186K), Sigs with seniority just below Lt Udayaditya Mukherjee (SS-41185F), EME, Rajdeep Bhattacharjee (SS-41187M), Engrs with seniority just above Lt Vikas Khare (SS-41188P), EME whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 06 Mar 2006.

#### (SPECIAL COMMISSION)

The undermentioned eight JCOs/NCos are granted Special Commission in the Arm/Service as shown against their name in the rank of LT under AI 5/97 with effect from 10 Jun 2006 as per inter-se-seniority given below:—

Name, Army No, SCO No., Parent Arm/Service and ARM/Service Allotted.

Ajit Singh (3393498X) (SC-00502H), Inf, AOC

Kiran Kumar Chhetri (5848445A) (SC-00503:), Inf, Arty

Jintendra Bahadur Singh (JC-373810K) (SC-00504N), Sigs, Arty

Mahesh Singh Kiraula (4187695P) (SC-00505W), Inf, AOC

Goprade A.K. (9512654M) (SC-00506Y), AEC, Arty

Jammalamadaka Mahesh (15120944K) (SC-00507F), Arty, Arty

Vinod Pratap (14918019N) (SC-00508K), Mech, AOC

S Periya Karuppan (15311960K) (SC-00509M), Engrs (MEG), Arty

S. K. SHARMA  
Lt. Col.  
AMS-8B

## INTEGRATED HEAD QUARTERS (NAVY)

## (DTE OF ADMIN/CIV SECTION)

No. 187, dated 29 March 2007—The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Rs. 6500-200-10,500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period mentioned against their name, or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

(a) Shri U.K. Ahuja, 23 Nov 2006/23 Feb 2007

(b) Shri Joginder Singh Virk, 02 Jan 2007/23 Feb 2007

(c) Smt Mridula Mathur, 05 Jan 2007/23 Feb 2007

(d) Shri Rishi Prakash Upreti, 02 Jan 2007/23 Feb 2007

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH

Dy. Chief Admn. Officer (A)

No. 188, Dated 28 March 2007—The President is pleased to extend the appointment of the following regular Private Secretaries borne on the CSSS Cadre as Principal Private Secretary in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 10000-325-15,200/- on ad-hoc basis for further period mentioned against each or till regular Principal Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier:—

| S.No. | Name of the Officer | From        | To          |
|-------|---------------------|-------------|-------------|
|       | S/Shri              |             |             |
| 1.    | M. Sasidharan       | 01 Jan 2007 | 30 Jun 2007 |
| 2.    | G. V. Singh         | 01 Jan 2007 | 30 Jun 2007 |
| 3.    | A.S. Bharara        | 01 Jan 2007 | 30 Jun 2007 |
| 4.    | B.C. Mehta          | 01 Jan 2007 | 30 Jun 2007 |
| 5.    | Suresh Kumar        | 01 Jan 2007 | 30 Jun 2007 |

The President is pleased to extend the appointment of the following regular Principal Private Secretaries borne on the CSSS Cadre as Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 12000-375-16,500/-, on ad-hoc basis for further period mentioned against each or till regular Senior Principal Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier:—

| S.No. | Name of the Officer | From        | To          |
|-------|---------------------|-------------|-------------|
|       | S/Shri              |             |             |
| 1.    | O.P. Chauhan        | 01 Jan 2007 | 30 Jun 2007 |
| 2.    | B.K. Banerjee       | 01 Jan 2007 | 30 Jun 2007 |

The President is pleased to extend the appointment of the following regular Stenographers Grade 'C' borne on the CSSS Cadre, Presently officiating as Private Secretary on ad-hoc basis, as Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- for further period mentioned against each or till regular Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier:—

| S.No. | Name of the Officer         | From        | To          |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1.    | Shri Rajinder Prasad Sharma | 01 Jan 2007 | 30 Jun 2007 |
| 2.    | Shri Narendra Chadha        | —do—        | —do—        |
| 3.    | Smt. Harvinder Chawla       | —do—        | —do—        |
| 4.    | Smt. Sukhpal Walia          | —do—        | —do—        |
| 5.    | Smt. Sunita Kohli           | —do—        | —do—        |
| 6.    | Shri S.C. Dhingra           | —do—        | —do—        |
| 7.    | Shri R. Shankaranarayanan   | —do—        | —do—        |
| 8.    | Shri V.V.N. Kutty           | —do—        | —do—        |
| 9.    | Smt. Nirmal Anand           | —do—        | —do—        |
| 10.   | Smt. Veena Mehta            | —do—        | —do—        |
| 11.   | Smt. Santosh Kumari Sharma  | —do—        | —do—        |
| 12.   | Smt. Janak Chopra           | —do—        | —do—        |
| 13.   | Smt. Veena Sachdeva         | —do—        | —do—        |
| 14.   | Shri H.R. Dhiman            | —do—        | —do—        |
| 15.   | Smt. Chander Kanta Kalra    | —do—        | —do—        |
| 16.   | Smt. Vijay Narang           | —do—        | —do—        |
| 17.   | Smt. Mariamma George        | —do—        | —do—        |
| 18.   | Shri Bal Krishan Singh      | —do—        | —do—        |
| 19.   | Smt. A Ganga                | —do—        | —do—        |
| 20.   | Shri Ashok Kumar            | —do—        | —do—        |
| 21.   | Smt. Shakti Bala Bakshi     | —do—        | —do—        |
| 22.   | Shri Nand Kishore           | —do—        | —do—        |
| 23.   | Shri Dharam Vir             | —do—        | —do—        |
| 24.   | Shri S. Nagarajan           | —do—        | —do—        |
| 25.   | Shri R.K. Sethi             | —do—        | —do—        |
| 26.   | Shri R.K. Mehta             | 01 Jan 2007 | 31 Jan 2007 |

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS (Private Secretary).

3. The Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S.K. DEB  
Under Secy.

No. 189, dated 28 March 2007—On completion of his extended tenure/expiry of earned leave, the services of Dr. Thomas Mathew, IAS (KL:83), Joint Secretary, Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Govt. of Kerala w.e.f. 19.02.2007 (FN).

S.K. DEB  
Under Secy.

ARMY BRANCH  
REGULAR ARMY  
ARMY SERVICE CORPS  
(Mechanical Transport)

No. 190, dated 29 March 2007—The President is pleased to make the following promotion:—

To be Subedar (RT)

Nb Sub Prakash Chandra (JC-660829H), 08 Jan 2007\*

Nb Sub Diwakar Pandey (JC-660830X), 03 Jan 2007\*

Nb Sub Brijesh Kumar (JC-660883W), 02 Jan 2007\*

Nb Sub Satya Prakash (JC-660884Y), 08 Jan 2007\*

Nb Sub Gyan Babu Tripathi (JC-660886K), 05 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allowances)

To be Subedar (MT)

Nb Sub Virpal Singh (JC-662685K), 12 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mirtyanjai Kumar (JC-662716Y), 11 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kulbhushan Sharma (JC-662722M), 01 Jan 2007

Nb Sub Ram Krishna (JC-662723P), 01 Jan 2007

Nb Sub Kailash Chander Jogi (JC-662734F), 09 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Salik Ram (JC-662735K), 02 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Shyam Lal (JC-662739A), 01 Jan 2007

Nb Sub Chandra Kanta Borah (JC-662749K), 02 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Raj Kishore (JC-662775L), 01 Jan 2007

To be Naib Subedar (MT)

Hav Subash Mondal (No. 13886252P now JC-664198H), 25 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Chandra Bhan (No. 13886459P now JC-664204L), 04 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Sep 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Mahanth Singh (No. 13887154F now JC-664202A), 03 Dec 2006\*

Hav Bhaba Shankar Das (No. 13887170Y now JC-664199L), 02 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Aug 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Banay Singh (No. 13887501P now JC-664200P), 18 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 June 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Nand Kishore (No. 13889689N now JC-664203H), 18 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Aug 2006 without effect on pay & allowances)

Hav Tej Bahadur (No. 13890454W now JC-664201X), 11 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Anil Kumar Prasad (No. 13891321K now JC-664205N), 02 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Apr 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Raj Kumar (No. 13894183Y now JC-664206W), 03 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Manoranjan Das (No. 13885503F now JC-664256F), 13 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Aug 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Badan Singh (No. 13885943P now JC-664259P), 12 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Aug 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Shree Bhagwan Singh (No. 13887022N now JC-664260K), 13 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Aug 2006 without effect on pay & allowances).



Hav Dilip Kumar Parida (No. 13887677A now JC-664271W),  
16 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Madhusudan Garai (No. 13889024X now JC-664257K),  
13 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Gautam Singh (No. 13889297A now JC-664252L),  
15 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Parsuram Pandey (No. 13890507F now JC-664255Y),  
22 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Aug 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Akhileshwar Prasad Singh (No. 13890553W now JC-  
664253N), 19 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Md Abdul Mojid (No. 13890878K now JC-664254W),  
27 Dec 2006\*

Hav Ashok Kumar Singh (No. 13891380W now JC-  
664258M), 14 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Prabhakar Singh (No. 13891776A now JC-664273F), 24  
Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without  
effect on pay & allowances).

Hav Sri Ram Prasad (No. 13891782N now JC-664261M),  
16 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Manoj Kumar (No. 13891918M now JC-664268W),  
05 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without  
effect on pay & allowances).

Hav Ram Pari Khan Choursiya (No. 13894096L now JC-  
664262P), 12 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Shambhu Prasad (No. 13894261L now JC-664269Y),  
15 Jan 2007\*

Hav Ram Bir Singh (No. 13894523W now JC-664267N),  
12 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without  
effect on pay & allowances).

Hav Hare Ram (No. 13894650L now JC-664264A), 01 Dec  
2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Faizur Rahman Laskar (No. 13897069M now JC-  
664265H), 13 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Banbari Lal (No. 13897123P now JC-664266L), 12 Jan  
2007\*

Hav Yad Ram Kumhar (No. 13897124X now JC-664272Y),  
19 Jan 2007\*

Hav Jai Kishor Pandit (No. 13897193N now JC-664263X),  
09 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2006  
without effect on pay & allowances).

To be Subedar (SKT)

Nb Sub Poonam Singh (JC-642731M), 01 Nov 2006

Nb Sub Kapil Dep Singh (JC-642558N), 02 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2006 without  
effect on pay & allowances).

Nb Sub Haridasan Pillai A (JC-642448Y), 12 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2006 without  
effect on pay & allowances).

To be Nb Subedar (SKT)

Hav Ram Gopal (No. 6383761L now JC-664236N), 09 Jan  
2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav S Rama Samy (No. 6384122W now JC-664237W),  
08 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Hemchandra Jha (No. 6383043P now JC-664238Y),  
11 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Sep 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Mahesh Singh (No. 6385792K now JC-664239F),  
10 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Aug 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Nilut Pal Das (No. 6386226W now JC-664240W), 13  
Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Ranjeet Prasad (No. 6386262F now JC-664241Y),  
03 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Shailesh Kumar Singh (No. 6385219M now JC-664242F), 08 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Kunja Ram Baro (No. 6385998F now JC-664243K), 11 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Jasdev Singh (No. 6380673K now JC-664244M), 09 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ravindran A (No. 6383714N now JC-664245P), 13 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Kishan Singh (No. 6385288K now JC-664246X), 10 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Sathianadhan Kunhi Purayil (No. 6472939L now JC-664247A), 13 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Dinesh Kumar (No. 6385325M now JC-664248H), 08 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Hari Ram (No. 6385934W now JC-664249L), 13 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Surendra Singh (No. 6385589M now JC-664250A), 12 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Tambe Suryabhan Sadhu (No. 6385454M now JC-664251H), 09 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

Hav Nitya Nanda Mondal (No. 14480790P now JC-299725K), 01 Oct 2006

RHM Karan Singh (No. 14393475H now JC-299726M), 18 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Arbind Kumar Singh (No. 14410267M now JC-299727P), 16 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Ram Mohan (No. 14414317K now JC-299728X), 19 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Sudeesh K (No. 14410618W now JC-299729A), 18 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Dhiraj Pal (No. 14410353X now JC-299730P), 19 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Jaswinder Singh (No. 14406833K now JC-299731X), 20 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Santraj Yadav (No. 15761265Y now JC-299732A), 16 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Bua Singh (No. 14408265H now JC-299733H), 19 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Kamlesh Kumar Mishra (No. 14413094L now JC-299734L), 15 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Ram Singh Rathore (No. 15102893Y now JC-299735N), 28 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Jugendra Singh (No. 14405344M now JC-299736W), 28 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Sanjeev N (No. 14407151L now JC-299737Y), 02 Oct 2006/29 Aug 2006\*

RHM Mahesh Kumar (No. 14412477L now JC-299738F), 06 Oct 2006/29 Aug 2006\*

RHM Souren Manna (No. 14405514L now JC-299739K), 05 Nov 2006/29 Aug 2006\*

RHM Satish Singh (No. 14411897Y now JC-299740Y), 17 Oct 2006/29 Aug 2006\*

Hav Liaquat Ali (No. 14489856F now JC-299741F), 17 Oct 2006/01 Oct 2006\*

Hav Pritam Singh (No. 15101981H now JC-299742K), 01 Nov 2006

Hav Gopal Das (No. 14379880P now JC-299743N), 01 Nov 2006

RHM Sadaq Mohammad Khan P (No. 14411669W now JC-299744P), 17 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Siby Joseph (No. 15761581X now JC-299745X), 11 Nov 2006/07 Nov 2006\*

Hav Narayan Das (No. 14380383X now JC-299746A), 01 Dec 2006

Hav Vinod Kumar Sharma (No. 14381312H now JC-299747H), 01 Dec 2006

Hav Mastan Singh (No. 14494690P now JC-299748L), 01 Dec 2006

Hav Prabhat Kumar (No. 14404686N now JC-299749N), 01 Dec 2006

Hav Raja D (No. 14387579N now JC-299750H), 16 Dec 2006/01 Nov 2006\*

RHM Jai Bhagwan (No. 14408398Y now JC-299751L), 16 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Antpal Singh (No. 14408241Y now JC-299752N), 16 Sep 2006/29 Aug 2006\*

RHM Raj Kumar (No. 15101835H now JC-299753W), 20 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Jaya Singh (No. 14410276N now JC-299754Y), 17 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Pabitra Mohan Bogha Singh (No. 14389996Y now JC-299755F), 19 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Suriya Prakash P (No. 14410245N now JC-299756K), 23 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Rajesh N (No. 14412426X now JC-299757M), 21 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Susen Chandra Das (No. 14396105N now JC-299758P), 20 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Anoop Singh (No. 14406854A now JC-299759X), 26 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Sarbjit (No. 15761135W now JC-299760M), 22 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Unnikrishnan A (No. 14409069P now JC-299761P), 28 Nov 2006/07 Nov 2006\*

Hav Meenaketan Behar Dolai (No. 14494293W now JC-299762X), 01 Dec 2006

\*(Gtd ante-date seniority wef)

S. P. SHARMA  
Under Secy.

No. 191, dated 29th March 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY POSTAL SERVICE CORPS

To be Sub Maj/Clk (Postal)

Sub/Clk (Postal) Ghanshyam Guleria (JC-834087F), 18 Aug 2006

To be Sub/Clk (Postal)

Nb Sub/Clk Sheo Kumar Singh (JC-834313H), 03 Dec 2005

Nb Sub/Clk Surendra Singh (JC-834309K), 07 Feb 2006

Nb Sub/Clk Jaipal Singh (JC-834324Y), 01 Apr 2006

Nb Sub/Clk Madan Pal Singh (JC-834325F), 13 Jul 2006

PRADEEP KUMAR  
Under Secy.

No. 192, dated 3rd April 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm and Subs Date

IC-38549 Diwawar Singh, Inf, 31 Oct 2004

IC-38713 S Dhir, Arty, 01 Mar 2006

IC-39210 RS Dhadwal, AOC, 01 Mar 2006

IC-39367 Rajiv Kanwar, Inf, 01 Mar 2006

IC-37865 S Suresh Kumar, Inf, 01 Mar 2006

IC-37752 GS Dhanoa, Arty, 01 Mar 2006

IC-39447 Jagmohan Singh, Inf, 01 Mar 2006

IC-39462 Ranjit Singh, Sigs, 01 Mar 2006

IC-39538 Vikram Mahajan, EME, 01 Mar 2006

IC-39544 KK Naithani, AOC, 01 Mar 2006

IC-39819 Satbir Singh, AEC, 01 Mar 2006

IC-37819 S Pandey, AOC, 01 Mar 2006

IC-37841 Kishore Kumar, AOC, 01 Mar 2006

IC-40035 NB Thapa, Inf, 01 Mar 2006

IC-40074 Deepak Bisht, Inf, 01 Mar 2006

IC-40140 RS Ghuman, Inf, 01 Mar 2006

IC-40165 K Hari Das, Guards, 01 Mar 2006

IC-41824 Ravinder Singh, Engrs, 01 March 2006

IC-40073 Ved Prakash, Inf, 01 March 2006

IC-37868 PS Gill, Guards, 01 March 2006

IC-37869 PK Ganjoo, ASC, 01 March 2006

IC-37879 Bhawani Singh, Inf, 01 March 2006

IC-37882 Dalip Singh, AOC, 01 March 2006

IC-37885 VK Saini, Arty, 01 March 2006

IC-37886 Avtar Singh, Sigs, 01 March 2006

IC-37888 VC Joshi, Inf, 01 March 2006

IC-37890 Kashmir Singh, Inf, 01 March 2006

IC-37892 Ashwini Kumar, A/AVN, 01 March 2006

IC-37893 RC Nair, Guards, 01 March 2006

IC-37894 Dileshwar Nath, Arty, 01 March 2006

IC-37895 Harish Joshi, Inf, 01 March 2006

IC-37897 DP Sopori, Guards, 01 March 2006

|          |                                     |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| IC-37907 | Malook Singh, Sigs, 01 March 2006   | IC-40359 | AK Goyal, Inf, 01 March 2006        |
| IC-37913 | MC AA Pillay, Inf, 01 March 2006    | IC-40360 | AB Mistry, Inf, 01 March 2006       |
| IC-37922 | JS Arora, Arty, 01 March 2006       | IC-40362 | OP Singh, Inf, 01 March 2006        |
| IC-40290 | B Bakshi, Engrs, 01 March 2006      | IC-40363 | NJ George, Inf, 01 March 2006       |
| IC-40291 | A Uppal, Arty, 01 March 2006        | IC-40364 | Gajendra Prasad, Inf, 01 March 2006 |
| IC-40293 | AS Kler, AC, 01 March 2006          | IC-40366 | Anand Singh, Inf, 01 March 2006     |
| IC-40295 | AK Sapra, Engrs, 01 March 2006      | IC-40367 | DS Goraya, Inf, 01 March 2006       |
| IC-40297 | DS Chauhan, EME, 01 March 2006      | IC-40371 | P Kumar, Arty, 01 March 2006        |
| IC-40299 | Sanjay Verma, EME, 01 March 2006    | IC-40373 | Kawaljit Singh, AAD, 01 March 2006  |
| IC-40302 | RP Singh, M/Inf, 01 March 2006      | IC-40374 | KA Mahabir, Inf, 01 March 2006      |
| IC-40303 | MPS Mendonca, Arty, 01 March 2006   | IC-40377 | N Suri, AC, 01 March 2006           |
| IC-40304 | R Ahuja, Inf, 01 March 2006         | IC-40378 | BV Rao, Engrs, 01 March 2006        |
| IC-40305 | RR Akela, Engrs, 01 March 2006      | IC-40380 | KJS Gill, Guards, 01 March 2006     |
| IC-40306 | Sunil Gupta, EME, 01 March 2006     | IC-40382 | Arvind Dutta, Inf, 01 March 2006    |
| IC-40307 | S Shekhar Engrs, 01 March 2006      | IC-40384 | George Jacob, Inf, 01 March 2006    |
| IC-40308 | SK Saxena, Sigs, 01 March 2006      | IC-40385 | KBK Keshab, Inf, 01 March 2006      |
| IC-40312 | AA Mahmood, AC, 01 March 2006       | IC-40389 | NK Tomar, M/Inf, 01 March 2006      |
| IC-40313 | HS Jha, Inf, 01 March 2006          | IC-40393 | JK Sharma, M/Inf, 01 March 2006     |
| IC-40315 | Prem Prakash, Inf, 01 March 2006    | IC-40394 | B Walia, Inf, 01 March 2006         |
| IC-40319 | AK Chugh, Sigs, 01 March 2006       | IC-40395 | N Balan, Inf, 01 March 2006         |
| IC-40324 | RK Singh, Inf, 01 March 2006        | IC-40399 | D Sharma, Inf, 01 March 2006        |
| IC-40326 | Anil Pandey, Inf, 01 March 2006     | IC-40400 | KK Menon, Inf, 01 March 2006        |
| IC-40328 | N Kumar, Guards, 01 March 2006      | IC-40403 | KS Kumar, Inf, 01 March 2006        |
| IC-40329 | Pratap Singh, Sigs, 01 March 2006   | IC-40405 | SPS Aulakh, AAD, 01 March 2006      |
| IC-40330 | SM Singh, Inf, 01 March 2006        | IC-40406 | NR Lama, Inf, 01 March 2006         |
| IC-40331 | SC Sharan, Arty, 01 March 2006      | IC-40407 | AK Agrawal, Inf, 01 March 2006      |
| IC-40332 | RD Mudgil, AAD, 01 March 2006       | IC-40408 | C Mani, Sigs, 01 March 2006         |
| IC-40333 | Mickie Oberoi, Engrs, 01 March 2006 | IC-40411 | M Sreekumar, Sigs, 01 March 2006    |
| IC-40335 | Ashun Bahl, Engrs, 01 March 2006    | IC-40412 | S Kumar, AAD, 01 March 2006         |
| IC-40340 | PP Davis, AAD, 01 March 2006        | IC-40413 | KB Thapa, Arty, 01 March 2006       |
| IC-40343 | S Dhar, AC, 01 March 2006           | IC-40416 | Dhirendra Singh, Inf, 01 March 2006 |
| IC-40345 | Laxmi Narayan, Inf, 01 March 2006   | IC-40421 | SK Bhanot, Inf, 01 March 2006       |
| IC-40346 | C Bharti, Engrs, 01 March 2006      | IC-40422 | Navtej Singh, Guards, 01 March 2006 |
| IC-40347 | AN Gudi, Sigs, 01 March 2006        | IC-40425 | RK Ranjan, Arty, 01 March 2006      |
| IC-40352 | Rakesh Arora, Inf, 01 March 2006    | IC-40428 | SS Ratnaparkhi, Inf, 01 March 2006  |
| IC-40353 | Paramjit Singh, Inf, 01 March 2006  | IC-40429 | SS Joshi, Inf, 01 March 2006        |
| IC-40355 | A Chauhan, Inf, 01 March 2006       | IC-40435 | GVG Prasad, Arty, 01 March 2006     |
| IC-40357 | VS Mall, AOC, 01 March 2006         | IC-40438 | GN Purandare, Sigs, 01 March 2006   |
|          |                                     | IC-40442 | R Bali, M/Inf, 01 March 2006        |

|          |  |          |                                       |
|----------|--|----------|---------------------------------------|
| IC-40445 | JS Gulati, AOC, 01 March 2006          | IC-42241 | Ashish Kumar, EME, 01 March 2006      |
| IC-40446 | HS Faujdar, Inf, 01 March 2006         | IC-42244 | A Salman, Engrs, 01 March 2006        |
| IC-40448 | SS Negi, ASC, 01 March 2006            | IC-37930 | SK Verma, Inf, 01 March 2006          |
| IC-40471 | Mukesh Kumar, Inf, 01 March 2006       | IC-37931 | Nawnit Kumar, Inf, 01 March 2006      |
| IC-40476 | Ashok Galoth, Inf, 01 March 2006       | IC-37932 | NK Narayan, Inf, 01 March 2006        |
| IC-40478 | PM Rath, Arty, 01 March 2006           | IC-37934 | VD Chowgule, Inf, 01 March 2006       |
| IC-40487 | VS Dheman, AAD, 01 March 2006          | IC-37937 | NV Ramchandra, Arty, 01 March 2006    |
| IC-40489 | AS Ahlowalia, AOC, 01 March 2006       | IC-37940 | S Raman, Inf, 01 March 2006           |
| IC-40490 | Chandan Kumar, Engrs, 01 March 2006    | IC-37944 | Arvind Singh, ASC, 01 March 2006      |
| IC-40500 | YK Joshi, Inf, 01 March 2006           | IC-37947 | CRC Menon, Sigs, 01 March 2006        |
| IC-40506 | GN Goswami, ASC, 01 March 2006         | IC-37955 | Ravi Kant Popli, Arty, 01 March 2006  |
| IC-40508 | SK Sawhney, Inf, 01 March 2006         | IC-37956 | Navdeep Mathur, AC, 01 March 2006     |
| IC-40511 | NK Aguru, AOC, 01 March 2006           | IC-37960 | L Sekar, EME, 01 March 2006           |
| IC-40513 | Varinder Singh, ASC, 01 March 2006     | IC-37962 | Amarjit Singh, Inf, 01 March 2006     |
| IC-40514 | RS Ghanwat, Sigs, 01 March 2006        | IC-37966 | RK Tripathi, JAG, 01 March 2006       |
| IC-40515 | Subodh Kumar, Inf, 01 March 2006       | IC-37977 | A Umar Farook, Sigs, 01 March 2006    |
| IC-40516 | BP Bhardwaj, Inf, 01 March 2006        | IC-37979 | P Venugopal, Arty, 01 March 2006      |
| IC-40517 | Sandeep Kala, Inf, 01 March 2006       | IC-37981 | Sanjeev Upadhyaya, EME, 01 March 2006 |
| IC-40518 | M Manna, Engrs, 01 March 2006          | IC-37993 | S Soi, Inf, 01 March 2006             |
| IC-40519 | Brij Bhusan Singh, Sigs, 01 March 2006 | IC-37999 | NP Singh, Inf, 01 March 2006          |
| IC-40523 | BR Singh, AC, 01 March 2006            | IC-40836 | S Mukherjee, Arty, 01 March 2006      |
| IC-40530 | Gurmeet Singh, Inf, 01 March 2006      | IC-40680 | PN Rao, Inf, 01 March 2006            |
| IC-40531 | SS Rai, Engrs, 01 March 2006           | IC-40682 | AS Karki, M/Inf, 01 March 2006        |
| IC-40534 | MN Bhurke, Sigs, 01 March 2006         | IC-40684 | Sanjeev Sehgal, Engrs, 01 March 2006  |
| IC-40538 | SS Thakur, EME, 01 March 2006          | IC-40685 | R Shukla, Arty, 01 March 2006         |
| IC-40542 | VV Reddy, Int, 01 March 2006           | IC-40686 | Kav Bhaskar, Engrs, 01 March 2006     |
| IC-40545 | AK Gera, Inf, 01 March 2006            | IC-40687 | S Rajasekaran, AOC, 01 March 2006     |
| IC-40548 | Soban Singh, Inf, 01 March 2006        | IC-40688 | RV Singh, Inf, 01 March 2006          |
| IC-40550 | TP Singh, ASC, 01 March 2006           | IC-40689 | RS Kochhar, EME, 01 March 2006        |
| IC-40561 | MT Augustine, Arty, 01 March 2006      | IC-40692 | SV Nayagam, M/Inf, 01 March 2006      |
| IC-40567 | AK Singh, ASC, 01 March 2006           | IC-40693 | SK Panigrahi, Arty, 01 March 2006     |
| IC-40568 | K Umamaheshwar, Arty, 01 March 2006    | IC-40694 | R Avtar, Guards, 01 March 2006        |
| IC-40574 | Hitesh Lav, Inf, 01 March 2006         | IC-40695 | JS Virk, AC, 01 March 2006            |
| IC-40585 | LK Matai, M/Inf, 01 March 2006         | IC-40699 | K Sitaram, Engrs, 01 March 2006       |
| IC-40590 | J Chaudhry, Sigs, 01 March 2006        | IC-40700 | S Thapa, Arty, 01 March 2006          |
| IC-40597 | Vipan Gupta, ASC, 01 March 2006        | IC-40701 | KS Shekhawat, A/AVN, 01 March 2006    |
| IC-40600 | YS Kumar, Arty, 01 March 2006          | IC-40702 | A Talwar, M/Inf, 01 March 2006        |
| IC-40617 | SK Sharma, AOC, 01 March 2006          | IC-40703 | Harpal Singh, Engrs, 01 March 2006    |
| IC-40623 | PK Singh, Arty, 01 March 2006          | IC-40704 | Rana Gajraj Singh, EME, 01 March 2006 |
|          |  | IC-40707 | DS Gill, Arty, 01 March 2006          |

|          |                                      |          |   |
|----------|--------------------------------------|----------|---|
| IC-40709 | Ajay Ahluwalia, Engrs, 01 March 2006 | IC-40779 | Suresh Kumar, ASC, 01 March 2006        |
| IC-40710 | S Mehta, Inf, 01 March 2006          | IC-40781 | SS Chauhan, Inf, 01 March 2006          |
| IC-40711 | TC Mathew, Engrs, 01 March 2006      | IC-40782 | MS Mann, Inf, 01 March 2006             |
| IC-40712 | TS Sinha, Inf, 01 March 2006         | IC-40787 | RK Subramani, EME, 01 March 2006        |
| IC-40713 | Kuldip Mehta, Inf, 01 March 2006     | IC-40792 | DA Chaturvedi, Inf, 01 March 2006       |
| IC-40714 | BG Gilganchi, Sigs, 01 March 2006    | IC-40794 | VS Narang, Sigs, 01 March 2006          |
| IC-40715 | RS Rathod, Inf, 01 March 2006        | IC-40795 | S Narain, Inf, 01 March 2006            |
| IC-40716 | MC Pande, Engrs, 01 March 2006       | IC-40796 | RPS Sandhu, Inf, 01 March 2006          |
| IC-40717 | S Dhawan, Inf, 01 March 2006         | IC-40798 | KPR Hari, Inf, 01 March 2006            |
| IC-40720 | S Sharma, Inf, 01 March 2006         | IC-40800 | VD Abraham, EME, 01 March 2006          |
| IC-40721 | Prithi Singh, Inf, 01 March 2006     | IC-40801 | RK Bansiwali, Int, 01 March 2006        |
| IC-40722 | Kulpreet Singh, AC, 01 March 2006    | IC-40802 | Rajeev Ghai, EME, 01 March 2006         |
| IC-40724 | RS Pathania, Engrs, 01 March 2006    | IC-40804 | Dig Vijay Setia, Engrs, 01 March 2006   |
| IC-40727 | RK Chaudhary, Sigs, 01 March 2006    | IC-40805 | GM Sankar, Arty, 01 March 2006          |
| IC-40729 | DJS Katkar, M/Inf, 01 March 2006     | IC-40807 | GK Sharma, Guards, 01 March 2006        |
| IC-40732 | SU Dashrath, Inf, 01 March 2006      | IC-40811 | SJ Chitale, Engrs, 01 March 2006        |
| IC-40736 | MK Mukherjee, Arty, 01 March 2006    | IC-40812 | PM Vats, M/Inf, 01 March 2006           |
| IC-40741 | BS Sandhu, Inf, 01 March 2006        | IC-40813 | Mandeep Singh, AAD, 01 March 2006       |
| IC-40742 | Vijay Rawat, EME, 01 March 2006      | IC-40814 | K Kishore, AAD, 01 March 2006           |
| IC-40744 | S Thaper, Inf, 01 March 2006         | IC-40815 | Anup Bhaskar, Sigs, 01 March 2006       |
| IC-40746 | KA Chinnappa, M/Inf, 01 March 2006   | IC-40818 | Rambir Singh Mann, M/Inf, 01 March 2006 |
| IC-40748 | HK Arora, Engrs, 01 March 2006       | IC-40819 | RK Chopra, Sigs, 01 March 2006          |
| IC-40749 | PS Panesar, Sigs, 01 March 2006      | IC-40822 | S Ramakrishnan, Sigs, 01 March 2006     |
| IC-40750 | M Srinivasan, Engrs, 01 March 2006   | IC-40824 | A Seth, Inf, 01 March 2006              |
| IC-40753 | MJS Kahlon, AC, 01 March 2006        | IC-40825 | JC Rangra, Inf, 01 March 2006           |
| IC-40755 | S Pratap, Inf, 01 March 2006         | IC-40826 | SK Tiwari, Engrs, 01 March 2006         |
| IC-40757 | V Sahni, Inf, 01 March 2006          | IC-40833 | Navneet Mittal, Engrs, 01 March 2006    |
| IC-40760 | VS Srinivas, Inf, 01 March 2006      | IC-40837 | Dipendra Sarin, Inf, 01 March 2006      |
| IC-40761 | G Shaunik, AC, 01 March 2006         | IC-40838 | B Patnaik, Inf, 01 March 2006           |
| IC-40764 | R Menon, Arty, 01 March 2006         | IC-40841 | AA Bhat, Sigs, 01 March 2006            |
| IC-40769 | MG Harimohan, Arty, 01 March 2006    | IC-40844 | MM Nehru, Inf, 01 March 2006            |
| IC-40772 | S Azimuddin, Inf, 01 March 2006      | IC-40849 | Parminder Singh, AC, 01 March 2006      |
| IC-40773 | N Razora, Inf, 01 March 2006         | IC-40851 | RK Nayar, Arty, 01 March 2006           |
| IC-40777 | MS Jaswal, Inf, 01 March 2006        | IC-40852 | B Bhattacharya, Engrs, 01 March 2006    |
| IC-40778 | Balbir Singh, Inf, 01 March 2006     | IC-40853 | S Chakravarti, ASC, 01 March 2006       |
|          |                                      | IC-40854 | RS Bhatia, AC, 01 March 2006            |
|          |                                      | IC-40861 | Sanjay Prasad, EME, 01 March 2006       |
|          |                                      | IC-40864 | SD Vaze, Inf, 01 March 2006             |

IC-40866 SK Chand, AOC, 01 March 2006  
 IC-40869 RC Dwivedi, Inf, 01 March 2006  
 IC-40873 R Nagraj, Sigs, 01 March 2006  
 IC-40874 DV Raju, Inf, 01 March 2006  
 IC-40876 S Pachory, Inf, 01 March 2006  
 IC-40880 Rajesh Dixit, Sigs, 01 March 2006  
 IC-40882 JK Tiwari, Inf, 01 March 2006  
 IC-40884 AS Harge, Inf, 01 March 2006  
 IC-40885 RC Verghese, Engrs, 01 March 2006  
 IC-40887 TS Sandhu, AC, 01 March 2006  
 IC-40889 NK Unni, Sigs, 01 March 2006  
 IC-40894 Virendra Singh, Inf, 01 March 2006  
 IC-40897 SK Arora, ASC, 01 March 2006  
 IC-40900 AK Mall, Arty, 01 March 2006  
 IC-40901 K Mendonca, ASC, 01 March 2006  
 IC-40904 KS Nijjar, Arty, 01 March 2006  
 IC-40906 NK Raja, Inf, 01 March 2006  
 IC-40909 N Lal, AC, 01 March 2006  
 IC-40913 RK Goyal, Arty, 01 March 2006  
 IC-40918 Badri Vittal, Engrs, 01 March 2006  
 IC-40923 V Kohli, Arty, 01 March 2006  
 IC-40933 MV Chandran, Inf, 01 March 2006  
 IC-40934 AK Sharma, Inf, 01 March 2006  
 IC-40936 NP Chandran, ASC, 01 March 2006  
 IC-40948 KR Prasad, Arty, 01 March 2006  
 IC-40956 Lalit Kapoor, Engrs, 01 March 2006  
 IC-40958 RK Sharma, Engrs, 01 March 2006  
 IC-40963 Amitabh Amit, Inf, 01 March 2006  
 IC-40966 S Suri, AAD, 01 March 2006  
 IC-40968 YS Rana, AAD, 01 March 2006  
 IC-40974 PP Singh, ASC, 01 March 2006  
 IC-40977 SS Dhillon, EME, 01 March 2006  
 IC-40981 Narinder Singh, Inf, 01 March 2006  
 IC-40982 GS Aul, Arty, 01 March 2006  
 IC-40991 Amit Timothy, Inf, 01 March 2006  
 IC-41004 Raman Mahna, ASC, 01 March 2006  
 IC-41005 PC Patnaik, Arty, 01 March 2006  
 IC-41007 N Kumar, Inf, 01 March 2006

IC-41024 CN Girish, Inf, 01 March 2006  
 IC-41025 TSA Narayanan, EME, 01 March 2006  
 IC-41034 YVR Vijay, EME, 01 March 2006  
 IC-42679 JP Singh, EME, 01 March 2006  
 IC-42683 KR Babu, Engrs, 01 March 2006  
 IC-42686 HK Trivedi, Sigs, 01 March 2006  
 IC-42688 DJ Pathak, Engrs, 01 March 2006  
 IC-42690 AK Sur, EME, 01 March 2006  
 IC-42693 AK Kochhar, Sigs, 01 March 2006  
 IC-42698 S Rajaram, Sigs, 01 March 2006  
 IC-42699 AK Jindal, Engrs, 01 March 2006  
 IC-42700 Nair Sreedharan, Engrs, 01 March 2006  
 IC-42703 JM Durgapal, Sigs, 01 March 2006  
 IC-42708 Sanjay Bajpai, Engrs, 01 March 2006  
 IC-42716 VN Murthy, Engrs, 01 March 2006  
 IC-42725 VK Singh, Sigs, 01 March 2006  
 IC-42692 AK Sharma, Engrs, 01 March 2006  
 IC-42742 Hemant, Int, 01 March 2006  
 IC-37964 Rajesh Anand, Arty, 01 March 2006  
 IC-03830 Anand Kumar, SL QM, 01 March 2006  
 IC-02929 RS Sangwan, SL RO, 01 March 2006  
 IC-41041 Punam Bali, MF, 01 March 2006

Lt Col (TS) to be Substantive Lt Col (By Selection)

#### SURVEY OF INDIA

IC-39855 Chandan Chatterjee, Engrs, 19 November 2001

AJAY GOEL  
 Dy. Dir.  
 MS-8A

No. 193, dated 30th March 2007—The President is pleased to make the following promotions :—

#### TERRITORIAL ARMY

#### TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj SK Sood (TA-41647), Engr, 16 December 2004

Maj PMM Rao (TA-41702), Engr, 16 December 2004

Maj DC Dogra (TA-41944), Engr, 16 December 2004  
 Maj Rakesh Behal (TA-41947), Engr, 16 December 2004  
 Maj NK Tuli (TA-41972), Engr, 16 December 2004

To be Maj

Capt Jaswant Singh (TA-42118), Engr, 16 December 2004  
 Capt B Munduia (TA-42196), Engr, 16 December 2004  
 Capt SK Berwa (TA-42205), Engr, 16 December 2004  
 Capt B Naskar (TA-42270), Engr, 16 December 2004

N KALIAPPAN  
 Under Secy.

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 194, dated 3rd April 2007—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Lt General

Rank, Name (IC No), Arm, Date of subs rank

Maj Gen Satyevir Yadav, UYSM, AVSM (IC-26838),  
 Kumaon, 01 Dec 2005 with seniority from 01 Nov 2005  
 without effect on pay and pension.

N K PHUKAN  
 AMS/MS (X)

No. 195, dated 28th March 2007—The President is pleased to retire Shri Rajendra Prasad, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 28.2.2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri Bhubneshwar Lal Dass, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 28.2.2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. K. DEB  
 Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 196, dated 3rd April 2007—

#### CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No 312 published on 25 Jun 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made :—

Against : IC-54865 Tarak Mazumdar, Arty  
 For : 16 Dec 2004  
 Read : 06 Nov 2003

SHIV RAM BAIRWA  
 Dy. Dir.  
 MS-8C